



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 64-2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, APRIL 7, 2022 (CHAITRA 17, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना
दिनांक 7 अप्रैल, 2022

संख्या 18/31/2022-5क1.- हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियमावली, 1994 के नियम-10 तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18/31/2022-5क1 दिनांक 4 मार्च, 2022 के सन्दर्भ में तथा इस सम्बंध में पूर्व में सभी जारी आदेशों/अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा **नगर निगम, फरीदाबाद, जिला-फरीदाबाद** के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित करते हैं :-

सीमाओं की अनुसूची

वार्ड नं० 01 :- प्रारंभिक बिन्दू दिल्ली-मथुरा रोड, जंहा पर नगर निगम, फरीदाबाद की दक्षिणी सीमा दिल्ली-मथुरा रोड पर मिलती है, से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर स्थित जे.सी.बी चौक तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर 200 फुट चौड़े रोड पर चलते हुए सै०-25 से सोहना रोड जंक्शन तक, इस बिन्दु से पश्चिमी दिशा में सोहना रोड पर चलते हुए सै०-55 बर्फानी स्वीट्स के जंक्शन तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुए सै०-55 में स्थित वेदराम के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए सैक्टर-55 के लेबर चौक तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर सैक्टर-55 के 18 मीटर चौड़े रोड पर चलते हुए मंदर डेरी बूथ के कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सै०-55 के म०नं० 185 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए सै०-55 के मकान नं० 186 के कोने तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए सैक्टर-55 के म०नं० 628 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए गुडगांवा कैनल के उत्तरी किनारे पर स्थित ट्यूबवैल पॉकेट 400 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में गुडगांवा कैनल के पश्चिमी किनारे के साथ चलते हुए सै०-56 गुडगांवा कैनल के जंक्शन तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए सै०-56 में धर्म नम्बरदार के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सतबीर मास्टर के मकान के कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए सै० 56 के म०नं० 3592 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गांव प्रतापगढ़ की फिरनी तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलकर सै० 56 के म०नं० 3422 से होते हुए सै०-56 स्थित रावल पब्लिक स्कूल तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ चलकर रावल स्कूल की बाउंड्री वॉल के साथ-साथ होते हुए मैट्रो बिल्डिंग की बाउण्ड्रीवाल तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए मैट्रो बिल्डिंग की बाउण्ड्रीवाल के साथ-साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलकर मैट्रो बिल्डिंग की बाउण्ड्रीवाल के कोने तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सै०-56 स्थित निगम के डिस्पोजल/एस०टी०पी० तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर उक्त डिस्पोजल की चारदीवारी से होते हुए एस.टी.पी. के उत्तरी व पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए डिस्पोजल की चारदीवारी से होकर नाले के कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर नाले के किनारे के साथ-साथ चलते हुए दलीप कालोनी की चारदीवारी के कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व-दक्षिणी दिशा की ओर चलकर नगर निगम की दक्षिणी सीमा के साथ लगती हुई सै०-56 स्थित सी.आई.ए. पुलिस चौकी तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए गौरव हॉस्पिटल तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए प्राईमरी स्कूल/ओमवैली वाटिका तक, इस बिन्दु से नगर निगम की दक्षिण-पूर्वी सीमा से होते हुए सै०-57 स्थित एफ.आई.टी. के कोने तक, इस बिन्दु से नगर निगम की दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी सीमा से होते हुए नगर निगम की दक्षिणी सीमा तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं० 02 :- प्रारम्भिक बिन्दु दिल्ली-मथुरा रोड जंहा पर नगर निगम, फरीदाबाद की दक्षिणी सीमा दिल्ली-मथुरा रोड पर मिलती है, से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर स्थित जे.सी.बी. कम्पनी चौक तक, इस बिन्दु से पहले पश्चिम दिशा में फिर उत्तर दिशा में सै०-25 के पश्चिम में स्थित 200 फुट चौड़े रोड पर चलते हुए सोहना रोड जंक्शन तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में सोहना रोड पर चलते हुए हार्डवेयर-सोहना रोड के टी-प्वाइंट जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में 200 फुट चौड़े हार्डवेयर-सोहना रोड पर चलते हुए मुजेसर शमशानघाट के नजदीक गौँछी ड्रैन की पुलिया के कोने तक, इस बिन्दु से गौँछी ड्रैन के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ पूर्व दिशा में चलते हुए रेलवे लाइन तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में रेलवे लाइन के पश्चिमी किनारे पर चलते हुए मुजेसर फाटक तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में दिल्ली-मथुरा रोड को जाने वाली मुजेसर फाटक वाली रोड पर चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से दिल्ली-मथुरा रोड पर दक्षिण दिशा में चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर डिस्पोजल/अनाज मण्डी को जाने वाली सड़क के मोड़ तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में डिस्पोजल की उत्तरी चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए डिस्पोजल के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में डिस्पोजल की उत्तरी चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए डिस्पोजल के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलकर सुभाष कालोनी मैन रोड से होते हुए गली नं० 13 में स्थित हरीश कुमार की किरयाने की दुकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलकर गली नं० 13 में स्थित महेश चौधरी के म०न० 1097 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में रेलवे लाइन के साथ-साथ चलते हुए नगर निगम की दक्षिणी सीमा तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में नगर निगम की सीमा पर चलते हुए बापू नगर फ्लैट के साथ होकर दिल्ली-मथुरा रोड पर नगर निगम की सीमा तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं० 03 :- प्रारम्भिक बिन्दु हार्डवेयर-सोहना रोड (डा० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग) जोकि सै०-24 के पश्चिम में 200 फुट चौड़े रोड से 33 फीट रोड के कोने पर उधम डागर की दुकान से पश्चिम दिशा में 33 फुट रोड पर चलते हुए गली नं०-25 के कोने पर स्थित महेन्द्र साइकिल की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलते हुए गली नं०-25 में स्थित सुभाष किरयाना की दुकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए परवीन जिम वाली गली नं०-25 तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए मैन 22 फीट रोड पर गली नं०-31 में स्थित नरेश पण्डित के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए मैन 33 फुट रोड पर गली नं० 31 में स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के ए.टी.एम. के कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए एम.डी. मेडिकल स्टोर तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए ज्योति अस्पताल के नजदीक स्थित डा० रतन लाल गुप्ता के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए संजय कालोनी की गली नं०-28 में नाले के पास स्थित शुक्ला के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए बन्टी सरदार के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में सोहना रोड पर चलते हुए हरी कोठी तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए जीवन नगर पार्ट-2 में स्थित तेवतिया पेट्रोल पम्प तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में गौँछी ड्रैन के पूर्वी किनारे पर चलते हुए आलम खान कबाड़ी वाले कॉर्नर मोड़ तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए सरूरपुर पुलिया चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में नगर निगम की पश्चिमी सीमा पर चलकर उस रास्ते तक जोकि सैक्टर-56 के एस.टी.पी. तक जाता है, इस बिन्दु से इस रास्ते पर पूर्व दिशा में चलते हुए सै०-56 के एस०टी०पी० की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलकर एस०टी०पी० के दक्षिण-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए एस.टी.पी. के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए एस.टी.पी. के उत्तर-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए एस.टी.पी. के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए मैट्रो कालोनी की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में मैट्रो बाउण्ड्रीवाल के साथ-साथ चलते हुए मैट्रो बाउण्ड्रीवाल के दक्षिण-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से मैट्रो कालोनी की पूर्व दिशा में सड़क पर चलते हुए रावल बाल शिक्षा केन्द्र के मोड़ तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए रावल बाल शिक्षा केन्द्र की चार दीवारी के कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए सै०-56 में स्थित मुन्दरसिंह के म०न० 3577 तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए म०न० 3595 सै०-56 की पिछले हिस्से वाली सड़क के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए सुन्दर के खेत व धर्मपाल के मकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए सै० 56 के नजदीक कौशिक निवास (पूर्व सरपंच) तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलकर सतबीर के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलकर 100 फुट रोड के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में 100 फुट रोड पर चलते हुए सै०-56 के गुडगांव कैनाल के पुल तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में गुडगांव कैनाल की पटरी पर चलते हुए बैडमिंटन पार्क तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में सै० 55 के मकान नं० 192 (समर हाउस) तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए सै० 55 के मकान नं० 186 (चौधरी हाउस) तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में सै० 55 के मकान नं० 634 (जिंदल हाउस) तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए सै० 55 के मकान नं० 170 (ए.के.पांडे हाउस) तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए सै० 55 के कम्युनिटी सैन्टर तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए सै० 55 के लेबर चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए प० वेदराम पण्डित मन्दिर तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए सै० 55 के साथ सोहना रोड पर स्थित पुलिस चौकी बर्फानी चौक तक, इस बिन्दु से पूर्व में चलते हुए मैन बल्लभगढ़-सोहना रोड पर स्थित रिलायंस मार्ट स्टोर तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए पुनः 33 फीट रोड पर उधम डागर की दुकान तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं० 04 :- प्रारम्भिक बिंदु एन.आई.टी. औद्योगिक क्षेत्र के मुजेसर नाले पर स्थित मुजेसर डिस्पोजल के दक्षिण-पश्चिमी कोने से पूर्व दिशा में मुजेसर नाले के दक्षिणी किनारे के साथ-साथ चलते हुए रेलवे लाइन के पूर्वी किनारे तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर रेलवे लाइन के पूर्वी किनारे के साथ चलते हुए बाटा रेलवे पुल क्रॉसिंग तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में बाटा-हार्डवेयर रोड पर चलते हुए न्यु जनता कॉलोनी की अंतिम गली तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए न्यु जनता कालोनी के शिव मंदिर तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए एन.आई.टी. औद्योगिक क्षेत्र के पश्चिम में स्थित

200 फुट रोड के टी-प्वाइंट तक जोकि डॉ० बी.आर. अम्बेडकर पार्क का कोना भी है, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए सारन चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलते हुए गुरुद्वारा रोड के कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में पुरानी प्रेस कॉलोनी की बाउंडरीवाल पर चलते हुए प्रैस कालोनी सब्जी मंडी रोड पर स्थित हरी पंसारी की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तरी-पूर्वी दिशा में चलते हुए पुराने शिव मंदिर तक, इस बिन्दु से दक्षिणी-पूर्वी दिशा में औल्ड प्रेस कॉलोनी की बाउंडरीवाल के साथ चलते हुए कैंडल मोटर्स (ई-बाईक एजेन्सी) तक, इस बिन्दु से गोंछी नाले के किनारे से दक्षिण दिशा में चलते हुए संजय कॉलोनी की गली नम्बर-54 में स्थित राम बुद्धन के मकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में संजय कालोनी की गली नं० 54 में चलते हुए भारत मेडिकल स्टोर 33 फुट रोड तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में संजय कालोनी की 33 फुट रोड पर चलते हुए गली नम्बर-42 में स्थित श्री श्याम सीमेंट एजेंसी तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में संजय कालोनी की गली नं० 42 में चलते हुए दुकान नम्बर-17957 मदर डेरी 22 फुट रोड तक, इस बिन्दु से उत्तरी दिशा में संजय कालोनी के 22 फुट रोड पर चलते हुए गली नम्बर-13 में गौतम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में गली नम्बर-13 पर चलते हुए देवदत्त शर्मा के मकान नम्बर-3208 संजय कॉलोनी तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए सेक्टर-23ए के मकान नम्बर-1957 की बैकसाइड (सेक्टर-23ए अंतिम बाउंडरी) तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए मकान नम्बर-1941 सेक्टर-23ए तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए बिजली बोर्ड विभाग की रिहायशी कॉलोनी के बैकसाइड की बाउंडरी वाल तक, इस बिन्दु से इस कॉलोनी की बैकसाइड बाउंडरीवाल के साथ साथ पूर्वी दिशा में चलते हुए सोहना हार्डवेयर रोड तक, इस बिन्दु से उत्तरी दिशा में चलते हुए एन.आई.टी. औद्योगिक क्षेत्र के मुजेसर नाले पर स्थित मुजेसर डिस्पोजल के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक जो कि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिंदु है।

वार्ड नं० 05 :- प्रारम्भिक बिंदु सैक्टर-23 स्थित बिजली बोर्ड कार्यालय की दक्षिणी चारदीवारी पर पश्चिम दिशा में चलते हुए सै०-23ए में दहिया के मकान नं० 1894 तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए 50 गज पाकेट के नजदीक सै०-23ए के म०नं० 1941 तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए संजय कालोनी के लाम्बा चौक तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए संजय कालोनी की वेद डी०जे० वाली गली नं० 12 तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में 22 फुट रोड पर पर चलते हुए संजय कालोनी के ओम मेडिकोज तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में 22 फुट पर चलते हुए संजय कालोनी की मदर डेयरी तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए संजय कालोनी के 33 फुट रोड पर स्थित श्री श्याम सीमेंट एजेंसी तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में 33 फुट रोड पर चलते हुए भारत मेडिकल स्टोर तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में संजय कालोनी की गली नं० 54 में चलते हुए गौन्ही ड्रेन पर स्थित विकास वाल्मीकि की दुकान तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में गौन्ही ड्रेन पर चलते हुए गली नं० 8 के सामने वाली छोटी पुलिया तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए वैध रोड पर स्थित श्री साई सैलून तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में वैध रोड पर चलते हुए गौन्ही ड्रेन पर स्थित पुलिया तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में गौन्ही ड्रेन पर चलते हुए घोडे वाली गली तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए लाला कश्यप की दुकान तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए पूजा कान्वेंट स्कूल (पुराना) तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए अपना घर सोसायटी के मेन गेट सोहना रोड के टी-जंक्शन तक, इस बिंदु से सोहना-बल्लभगढ़ रोड पर उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए हरी कोठी तक, इस बिंदु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए बंटी सरदार की दुकान तक, इस बिंदु से पूर्वी दिशा में चलते हुए नाले के नजदीक गली नं० 28 में शुक्ला के मकान तक, इस बिंदु से उत्तरी दिशा में चलते हुए ज्योति हॉस्पिटल के नजदीक डॉ. रतन लाल गुप्ता के मकान तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए एम.डी. मेडिकल स्टोर तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए मेन 33 फुट रोड पर गली नं० 31 के पास स्थित आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के ए.टी.एम. तक, इस बिंदु से पूर्वी दिशा में चलते हुए गली नं० 31 में स्थित नरेश पंडित के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए मेन 22 फुट बी.पी. स्कूल संजय कालोनी वाली रोड पर चलते हुए प्रवीण जिम वाली गली तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में 33 फुट रोड पर चलते हुए पुलिस चौकी के नजदीक गली नं० 25 में स्थित सुभाष किरयाना की दुकान तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए गली नं० 25 संजय कालोनी में स्थित महेंदर साइकिल वाले की दुकान तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए सीधे संजय कालोनी में स्थित उधम डागर की दुकान तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में गली नं० 25 में चलते हुए सोहना-हार्डवेयर रोड के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में हार्डवेयर-सोहना रोड पर चलते हुए सैक्टर-23 स्थित बिजली बोर्ड कार्यालय की दक्षिणी चारदीवारी तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 06 :- प्रारम्भिक बिन्दु एयर फोर्स रोड टी-पॉइंट 60 फुट रोड पर स्थित अर्जुन हेयर ड्रेसर से दक्षिण दिशा की तरफ नैन चौक से होते हुए सिंह सुपर स्टोर तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए सारन रोड टी-प्वाइंट तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में सारन की ओर चलते हुए जवाहर कालोनी में ध्रुव क्लीनिक के कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए मनोज कुमार के म०नं० 1035 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए सतीश कुमार के म०नं० 958 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में सीधा चलते हुए जवाहर कालोनी के गुरुद्वारा रोड तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए जवाहर कालोनी के बड़े गुरुद्वारे तक, इस बिन्दु से गुरुद्वारे के सामने काले बनिया वाली गली में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए गौन्ही ड्रेन तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में गौन्ही ड्रेन के साथ-साथ चलकर हनुमान मंदिर होते हुए गौन्ही ड्रेन के साथ लगती कुवंरभान की गली नं० 8 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए वैद्य रोड पर साई हेयर ड्रेसर की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए वैद्य रोड की गली नं० 4 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए सारन स्कूल रोड पर मुस्कान स्वीट्स दुकान तक, इस बिन्दु से सारन स्कूल रोड पर उत्तर दिशा में चलते आनन्दपुर आश्रम वाली गली तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए इस गली के टी-प्वाइंट पर स्थित मेम्बरसिंह रावत के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए परशुराम धर्मशाला होकर नेतराम सरिया रोड पर स्थित रनवीर बिल्डिंग मेटेरियल तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए हनुमान मार्ग तक, इस बिन्दु से पहले उत्तर दिशा की ओर कच्चा रास्ते को क्रॉस करते हुए फिर पश्चिम दिशा में एयरफोर्स नाले को क्रॉस करते हुए चाचा चौक वाली रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुए

गली नं०-6 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए तुलाराम स्कूल तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए अटल चौक से होकर के.डी. स्कूल रोड पर रावण मन्दिर के सामने से होते हुए नंगला रोड पर स्थित मामा-भांजा हेयर ड्रेसर की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में स्थित माधव भवन सुन्दर कालोनी तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में सुन्दर कालोनी की गली नं०-5 में स्थित मुस्लिम मदरसा तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए सुन्दर कालोनी में स्थित रामप्रकाश के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए एयरफोर्स चारदीवारी के साथ स्थित रामसरूप के मकान तक, इस बिन्दु से एयरफोर्स की चारदीवारी के साथ-साथ पूर्व दिशा में चलते हुए शिव बॉउण्डरी तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए जवाहर कालोनी खण्ड-बी में स्थित अमरसिंह के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए एयरफोर्स की चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए ईको वाले पण्डित के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर एयरफोर्स स्टेशन की चारदीवारी के साथ चलते हुए एयरफोर्स स्टेशन के मैन गेट तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए एयर फोर्स रोड टी-पॉइंट 60 फुट रोड पर स्थित अर्जुन हेयर ड्रेसर तक जोकि इस वार्ड का प्राथमिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 07 :- प्रारम्भिक बिंदु पर्वतीया कालोनी गली नं०-4 वैध रोड से दक्षिण दिशा में चलते हुए गौन्धी ड्रेन पर स्थित न्यू गुप्ता किरयाना स्टोर तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए घोड़े वाली गली तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए अपना घर सोसायटी की दीवार तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में बल्लभगढ़ सोहना रोड पर चलते हुये गौन्धी ड्रेन पुलिया सोहना रोड के नजदीक तेवतिया पेट्रोल पम्प तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए गौन्धी ड्रेन की पटरी पर चलते हुये नगर निगम की उत्तर पश्चिमी सीमा तक, इस बिंदु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में चलते हुए रवि संन्स फैक्ट्री तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए टी.आर. इंटरप्राइजेज नगर निगम की सीमा तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में फिर पश्चिम दिशा फिर उत्तर दिशा से होते हुए नगर निगम की सीमा तक, इस बिंदु से उत्तर-पूर्वी दिशा में फिर पश्चिम दिशा में फिर उत्तर दिशा से होते हुए पश्चिम दिशा में नगर निगम की सीमा के साथ लगते हुए औद्योगिक क्षेत्र से चलते हुए कृषि योग्य भूमि तथा सोहना रोड के जंक्शन तक, इस बिंदु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुए सोहना रोड पर सरकारी स्कूल नगला गांव तक, इस बिन्दु से पहले उत्तर-पूर्व फिर पूर्व की तरफ फिरनी रोड पर चलते हुए नम्बरदार के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में फिरनी रोड पर चलते हुए सोहना रोड टी-प्लाइंट तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में सोहना रोड पर चलते हुए नंगला एन्क्लेव पार्ट-1 पर स्थित त्यागी ओयो होटल तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए बलजीत के मकान तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए युवराज हेयर सैलून तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए चन्द्रपाल के ट्यूबवेल तक, इस बिंदु से पूर्व की ओर चलते हुए नंगला एन्क्लेव पार्ट-1 स्थित आरा मशीन रोड तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए जी.एच.वाई. किड्स स्कूल तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए महाराणा प्रताप चौक तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में ओर चलते हुए टावर वाले मकान तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए अटल चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुये तुलाराम स्कूल गली नं०-6 तक, इस बिन्दु से पूर्वी दिशा में चलते हुये चाचा चौक से सोहना रोड स्थित सोनू गारमैन्ट्स तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुये शिव चौक तक, इस बिन्दु से पूर्वी दिशा में चलते हुये हनुमान मार्ग तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुये ए०पी० ऑटो सैन्टर तक, इस बिन्दु से पूर्वी दिशा में नेतराम सरिया रोड पर चलते हुये डॉ० बघेल की दुकान व रणबीर बिल्डिंग मैटेरियल तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुये रावत के मकान तक, इस बिन्दु से पूर्वी दिशा में चलते हुये आनन्दपुर आश्रम होते हुये सारन रोड तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुये मुस्कान स्वीट्स तक, इस बिन्दु से पूर्वी दिशा में चलते हुये वैद्य रोड स्थित गली नं०-4 तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिंदु है।

वार्ड नं० 08 :- प्रारम्भिक बिंदु बल्लभगढ़-सोहना रोड पर सूखी नहर स्थित शिव शक्ति इंटरप्राइजेस से आगे पूर्व दिशा में सोहना रोड पर चलते हुए नगला गांव के सरकारी स्कूल तक, इस बिन्दु से पहले उत्तर-पूर्व फिर पूर्व की तरफ फिरनी रोड पर चलते हुए नम्बरदार के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में फिरनी रोड पर चलते हुए सोहना रोड टी-प्लाइंट तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए सोहना रोड पर स्थित त्यागी (ओयो) होटल तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए बलजीत के मकान तक, इस बिन्दु से इसी रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुए युवराज हेयर सैलून तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए चन्द्रपाल वाले (ट्यूबवेल/आरा मशीन) तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए राईजिंग कान्वेंट स्कूल तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए महाराणा प्रताप चौक तक, इस बिंदु से आगे चलते हुए वर्मा ज्वेलर्स तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए अटल चौक तक, इस बिंदु से उत्तरी दिशा में चलते हुए नोडी कम्युनिकेशन (रावण मन्दिर रोड) तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए मुस्कान टेलर की दुकान तक, इस बिंदु से उत्तर-पश्चिमी दिशा चलकर के०डी० स्कूल नंगला रोड तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए तरुण फैब्रिक्स तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए ईश्वर के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में एयरफोर्स की चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए शनिदेव मंदिर तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए कृष्णा ट्रेडर्स तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए बालाजी मंदिर तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलते हुए नंगला-गाजीपुर रोड कॉसिंग तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए कौशिक मेडिकल स्टोर तक, इस बिन्दु से आगे पश्चिम दिशा में चलते हुए पुनः बल्लभगढ़-सोहना रोड पर सूखी नहर स्थित शिव शक्ति इंटरप्राइजेस तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 09 :- प्रारम्भिक बिंदु डबुआ-पाली रोड पर नवादा चौक के नजदीक दक्षिण दिशा में मनी की टाल वाले रोड पर चलते हुए डबुआ कालोनी की ट्रांसफॉर्मर वाली गली तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए फिर दक्षिण दिशा में चलकर डबुआ कालोनी के (यादव निवास) मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलकर डबुआ कालोनी में स्थित सुखदेव के मकान नं० 1971 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए डबुआ कालोनी के कोने पर स्थित मकान जोकि आगे चलकर दक्षिण दिशा में स्थित महावीर भडाना के मकान नं० 263 (डेयरी) से मिलता है, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर

चलकर डबुआ कालोनी के म०न० 1182 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलकर डबुआ कालोनी के बी.एन.बी. स्कूल तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलकर राठी कूलर वाले की दुकान के साथ डबुआ कालोनी स्थित निगम के टयूबवैल तक, इस बिन्दु से पूर्व-दक्षिण की तरफ एयरफोर्स की चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए की एयरफोर्स की चारदीवारी के पास स्थित भोलेश्वर मन्दिर तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ एयरफोर्स की चारदीवारी के साथ-साथ चलकर इस चारदीवारी के अंत में दक्षिण की तरफ चलते हुए उडिया कालोनी में ईश्वर के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम की तरफ चलकर उडिया कालोनी के कबीर परमेश्वर चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए उडिया कालोनी स्थित शनिदेव मन्दिर तक, इस बिन्दु से कच्चा रास्ता से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलकर कृष्णा ट्रेडर्स तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए बालाजी मन्दिर तक, इस बिन्दु से पश्चिम-दक्षिण दिशा की तरफ सीधा चलकर सोहना-पाली रोड पर स्थित शिवशक्ति इन्टरप्राइजिज तक, इस बिन्दु से सोहना-पाली रोड पर पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए उस बिन्दु तक जंहा पर नगर निगम की सीमा पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है, इस बिन्दु से नगर निगम की सीमा पहले पूर्व से फिर उत्तर में व फिर पूर्व फिर उत्तर में चलते हुए डबुआ-पाली रोड के कोने पर स्थित श्रीराम धर्मकांटा तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ डबुआ-पाली रोड पर चलते हुए गांव डबुआ की फिरनी के मोड़ तक, इस बिन्दु से डबुआ-पाली रोड पर चलते हुए डबुआ गांव में रोड पर स्थित साक्षी धर्मकांटा तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्व दिशा में डबुआ फिरनी रोड पर चलते हुए डबुआ-पाली रोड पर स्थित गंगाराम मन्दिर तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में डबुआ-पाली रोड पर चलते हुए पुनः डबुआ-पाली रोड पर स्थित नवादा चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं० 10 :- प्रारम्भिक बिन्दू 60 फुट रोड पर स्थित डबुआ चौक से उत्तर दिशा में पोस्ट आफिस रोड पर स्थित वधवा बर्तन भण्डार तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए गली के अन्त में स्थित शान्ती देवी के म०न० सी-210 तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए अन्त में स्थित निगम के स०कर्मचारियों के हाजरी स्थल तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए म०न० बी-711 (अग्रवाल किराना स्टोर) तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए पुलिस चौकी रोड पर स्थित ए-1399 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ पुलिस चौकी रोड पर चलते हुए अन्त में स्थित म०न० ए-1391 (पप्पु वैल्लिंग वर्कशॉप) तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए म०न० ए-1211 आत्माराम शर्मा के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए 33 फुट रोड पर लाईफकेअर मैडीकल स्टोर तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए 33 फुट रोड पर स्थित गुलाटी किराना स्टोर तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए इसके अन्त में स्थित म०न० ए-1899 तक, इस बिन्दु से दक्षिण में चलते हुए रवि बुक डिपो तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा के अन्त में स्थित म०न० ए-1905 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए यंहा स्थित महावीर डेरी तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए अंतिम म०न० डी-1182 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में स्थित बी.एन. स्कूल तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में स्थित संजीव किराना स्टोर (राठी अलमारी) तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व के अन्त में 27 फुट रोड पर स्थित स्थित शिव मन्दिर तक, इस बिन्दु से पश्चिम की तरफ चलते हुए एयरफोर्स की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए एयरफोर्स की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व की तरफ चलते हुए एयरफोर्स की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से पूर्व की तरफ चलते हुए एयरफोर्स की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से उत्तर की तरफ चलते हुए एयरफोर्स की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से पश्चिम की तरफ चलते हुए एयरफोर्स की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से उत्तर की तरफ चलते हुए एयरफोर्स के मुख्य द्वार तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए 60 फुट रोड पर स्थित एयरफोर्स मोड़ तक, इस बिन्दु से उत्तर में 60 फुट रोड पर स्थित डबुआ चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं० 11 :- प्रारम्भिक बिंदु सारन चौक से उत्तर दिशा में इण्डसट्रीयल एरिया की पश्चिमी 200 फुट चौड़ी रोड पर चलते हुए रविदास मन्दिर तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में 27 फुट रोड चलते हुए दयानन्द स्कूल तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए 60 फुट रोड टी प्वाइंट तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए बाबा दीप सिंह चौक (प्याली चौक) तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए 3 नम्बर पुलिया तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए 17 नम्बर चुगी वाले चौराहे तक, इस बिंदु से दक्षिण पूर्वी दिशा में चलते हुए 33 फुट रोड पर स्थित डा० के.के. शर्मा के सामने स्थित म०न० 893 तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते प० आत्माराम शर्मा के म०न० ए-1211 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए बाहरी पुलिस चौकी रोड पर स्थित म०न० ए-1391 (पप्पु वैल्लिंग वर्कशॉप) तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए नगर निगम के स०कर्मचारियों के हाजरी स्थल तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए शिव मंदिर तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए लैजरवैली पार्क के साथ स्थित नगर निगम के स० कर्मचारियों के हाजरी स्थल तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए शान्ती देवी के म०न० सी-210 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए दयाराम गुप्ता के म०न० डी-25 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए पोस्ट ऑफिस रोड पर स्थित डबुआ चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए 60 फुट रोड के समीप स्थित कुरुक्षेत्र स्कूल जवाहर कालोनी तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए सारन स्कूल रोड तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए शिव पार्क के समीप अन्त में जवाहर कालोनी के म०न० 1132 तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए चावला गली में स्थित अंतिम बिंदु जवाहर कालोनी के म०न० 1118 तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए जवाहर कालोनी के म०न० 1002 तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए अंत में स्थित जवाहर कालोनी के म०न० 979 तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए अंत में स्थित बड़े गुरुद्वारे तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए अंत में गौन्धी ड्रेन पर स्थित काले बनिया की दूकान तक, इस बिंदु के उत्तर दिशमें चलते हुए गौन्धी नाले की पुलिया तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा चलते हुए पुरानी प्रेस कॉलोनी के शिव मन्दिर तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए अंत में स्थित जटवानी इलेक्ट्रॉनिक्स तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए सारन चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिंदु है ।

वार्ड नं० 12 :- प्रारम्भिक बिन्दु हार्डवेयर चौक से पश्चिम दिशा की ओर बाबा दीपसिंह चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलकर 3 नम्बर पुलिया नेहरू कालोनी के म०न० 1 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में डबुआ-पाली रोड पर चलते हुए 17 नम्बर चुंगी चौक तक, इस बिन्दु पर उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हुए नवादा सरकारी स्कूल तक, इस बिन्दु पर नवादा सरकारी स्कूल की बाहरी चारदीवारी के साथ साथ उत्तर दिशा की ओर नवादा गांव की बाल्मीकी बस्ती व सैनिक कालोनी की शुरुआती सीमा के साथ साथ जंगल के रास्ते से चलते हुए सै० 48-49 की डिवाइडिंग रोड पर सेंट जॉन स्कूल के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में सैनिका कालोनी रोड पर चलते हुये बडखल-पाली रोड के टी-प्वाइंट तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए बडखल गांव की कुम्हार वाली पुलिया तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में एन.आई.एफ.एम. की उत्तरी दीवार के साथ-साथ इसी रोड पर स्थित गुरुद्वारे के पीछे की तरफ से आगे चलते हुए एस.जी.एम. नगर के म०न० ए-240 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए मास्टर ऑटो कॅम्पनी के कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए एस.जी.एम. नगर के म०न० ए-214 तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुये एस.जी.एम. नगर के म०न० एम.सी.एफ-3888 (शिवशक्ति ट्रेडर्स) से आगे डिस्पोजल चौक से होते हुये गुडगांव रोड पर स्थित फैजान कुरेशी की हलाली चिकन शॉप तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व की ओर मुडकर मस्जिद चौक तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में होते हुए 3-एफ/168 (बीकानेर मिष्ठान भण्डार) तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ 3-डी व 3-ई, 2 एम०/एन० की डिवाइडिंग रोड से होते हुए 2 नं० लड़कियों के स्कूल तक इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुये 1-2 चौक स्थित भवानी मिष्ठान भण्डार तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ते हुए पुनः हार्डवेयर चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं० 13 :- प्रारम्भिक बिन्दु बी.के. चौक से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए नीलम चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर रेलवे रोड पर चलते हुए भगत सिंह कालोनी के म०न० 132 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए भगत सिंह कॉलोनी के म०न० 95 के साथ रेलवे लाइन तक, इस बिन्दु से रेलवे लाइन के पश्चिमी किनारे के साथ-साथ दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए नीलम फॅलाईओवर तक, इस बिन्दु से नीलम पुल के दक्षिण किनारे के साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए नाले तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर नाले के पश्चिमी किनारे के साथ साथ चलते हुए ए०सी० नगर स्थित दुकान नं० 122 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए ए.सी. नगर स्थित वाल्मीकि मंदिर तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में बंगला प्लॉटों की पूर्वी चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए ए.सी. नगर से आगे बंगला प्लॉट नं०-7 बी/8बी की पिछली चारदीवारी तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए नीलम-बाटा रोड के पूर्वी किनारे तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलकर बाटा पुल के नीचे तक जंहा पर यह रोड को काटती है, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए हार्डवेयर चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए 1-2 नम्बर चौक पर स्थित भवानी मिष्ठान भंडार तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए प्लॉट 2 बी/1 के सामने से होकर 2-एफ ब्लॉक के पार्क तक, इस बिन्दु से सीधा उत्तर दिशा की ओर चलते हुए राजकीय सीनियर सेकेंड स्कूल, एन.आई.टी. 2 के साथ और फिर 2 जे/136 के साथ-साथ होकर 3 डी/22 (बिगबॉस सैलून) तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए ई.एस.आई. चौक पर स्थित आर.के. हस्पताल तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में सडक के साथ-साथ चलते हुए चिमनी बाई धर्मशाला चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में दयानन्द महिला कॉलेज के सामने से होते हुए फिर वापिस बी०के० चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं० 14 :- प्रारम्भिक बिन्दु बाटा पुल के नीचे से गुजरती हुई रेलवे लाईन के साथ-साथ उत्तर दिशा की ओर चलते हुए चन्द्रकेश के मकान कृष्णा कालोनी तक, इस बिन्दु से पूर्व-दक्षिणी दिशा की ओर कृष्णा कालोनी स्थित वेदप्रकाश के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में कच्चे रास्ते पर चलते हुए रैडीसन ब्लु होटल रोड पर स्थित छटघाट तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में रैडीसन ब्लु होटल रोड पर चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में दिल्ली-मथुरा रोड पर चलकर रीजेन्ट होन्डा की एजेन्सी तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए अजरान्दा सब्जी मंडी को जाने वाली सडक के मोड़ तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए बृजवासी स्वीट्स (दुकान) तक, इस बिन्दु से पश्चिमी दिशा में चलते हुए टी प्वाइंट पर स्थित खेमचन्द गर्ग की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए सै०-15ए मार्केट के उत्तर-पूर्वी कोने के सामने स्थित नगर निगम के बूस्टर तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए सै०-15ए के म०न० 1 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए सै०-15ए के म०न० 14 तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए सै०-15ए के म०न० 65 के नजदीक स्थित पार्क तक, इस बिन्दु से पहले थोडा पूर्व दिशा में टयूबवैल के साथ से चलकर फिर उत्तरी दिशा में चलते हुए टी- प्वाइंट पर स्थित सै० 15ए के म०न० 85 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए सै० 15ए के म०न० 84 के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में सै० 15ए के म०न० 84 की पश्चिमी चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित सै० 15ए व 16ए डिवाइडिंग रोड तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर स्थित मैट्रो पिलर नं० 758 तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए ओल्ड फरीदाबाद स्थित राजीव चौक तक, इस बिन्दु से पश्चिमी दिशा की ओर प्रवेश मार्ग पर चलते हुए ओल्ड फरीदाबाद रेलवे लाईन के अण्डरपास के कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर रेलवे पटरी के साथ-साथ नीलम पुल के नीचे तक, इस बिन्दु से पश्चिम-दक्षिणी दिशा में चलते हुए नीलम पुल के पास स्थित अंकित प्लाजा की दुकान नं० 1 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में ए०सी० नगर नाले के पश्चिमी किनारे पर चलते हुए ए.सी. नगर की डिसपैन्सरी तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये ए.सी. नगर स्थित अमरनाथ स्कूल तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में नीलम बाटा रोड पर स्थित बी०पी० प्लॉट के पूर्वी किनारे के साथ साथ चलते हुए ए०सी० नगर स्थित सुलभ शौचालय तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में बी०पी० प्लॉट नं० 7 व 8 के बीच से चलते हुए नीलम बाटा रोड के टी-प्वाइंट तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलकर बाटा पुल के नीचे से पूर्व दिशा की ओर चलकर रेलवे लाईन तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं० 15 :- प्रारम्भिक बिन्दू बी०के चौक से उत्तर-पश्चिमी दिशा में के०एल० मेहता रोड़ पर चलते हुये व आगे चिमनीबाई धर्मशाला की उत्तरी दिशा में चलते हुये एस०जी०एम० नगर बांध रोड़ पर स्थित मेहता स्वीटस की दुकान के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में बांध रोड़ पर चलते हुये पटेल चौक तक, उस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में बडखल लेक को जाने वाली सड़क पर चलते हुये हनुमान मन्दिर के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में शमशान घाट रोड़ पर चलते हुये श्री भगवान परशुराम पार्क के कोने तक, उस बिन्दु से उत्तर पश्चिमी दिशा में सैक्टर-21बी० व 21डी० की डिवाइडिंग रोड़ पर चलते हुये सैक्टर-21बी० के मकान नं० 737 के कोने तक, उस बिन्दु से पूर्व की दिशा में सै० 21बी. 60 फुट रोड़ पर चलते हुये बजरंग प्रोपर्टी की दुकान के कोने तक, उस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में गांधी कालोनी के उत्तरी दिशा में स्थित रोड़ पर चलते हुये श्री बालाजी होम एप्लायसेन्स दुकान नं० ई०-28 गांधी कालोनी के कोने तक, उस बिन्दु से दक्षिण दिशा में मकान नं० 76बी० न्यू कालोनी, भाटिया क्रेन वाली गली के कोने तक, उस बिन्दु से भाटिया क्रेन वाली गली में पूर्व की तरफ चलते हुये रेलवे स्टेशन रोड़ पर स्थित जे०एम०जे० इन्टरप्राइजिज के ऑफिस के कोने तक, उस बिन्दु से रेलवे स्टेशन रोड़ पर दक्षिण की तरफ चलते हुये फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की पार्किंग के उत्तर पश्चिमी कोने तक, उस बिन्दु से पार्किंग की चारदीवारी के साथ पूर्व दिशा में चलते हुये रेलवे ट्रैक के पश्चिमी किनारे तक, उस बिन्दु से दक्षिण की तरफ रेलवे ट्रैक के पश्चिमी किनारे पर चलते हुये भगत सिंह कालोनी के मकान नं० 93 के कोने तक, उस बिन्दु से भगत सिंह कालोनी के मध्य में स्थित गली में पश्चिम की तरफ चलते हुये नगर निगम के केन्द्रीय भण्डार के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक, उस बिन्दु से एन०आई०टी०-5 के रेलवे रोड़ (शहीद भगत सिंह मार्ग) नीलम चौक को जाने वाली सड़क पर दक्षिण दिशा में चलते हुये नीलम चौक तक, उस बिन्दु से पश्चिमी दिशा में नीलम-बी०के० रोड़ पर चलते हुये बी०के० चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 16 :- प्रारम्भिक बिन्दू एस.जी.एम. नगर के मेहता स्वीटस से उत्तर दिशा में चलते हुए 25 फुट बांध रोड़ पर स्थित डा० राकेश भाटिया की दुकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में एस.जी.एम. नगर में चलते हुए मौजी दी हट्टी दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए टी प्वाइंट के अन्त में स्थित एस.जी.एम. नगर के म०न० 2833/ए तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए रोहित के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए 1847/5 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए टी प्वाइंट के अन्त में स्थित एस.जी.एम. नगर के म०न० 1854 तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए जी.बी.एल. स्कूल तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में 22 फुट रोड़ पर चलते हुए मोहन डेरी तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए नवजीवन मैडीकल स्टोर तक, इस बिन्दु से पश्चिम में चलते हुए नूरानी मस्जिद तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए सैक्टर-48 के मिनी डिस्पोजल तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए बडखल-पाली रोड़ पर स्थित दिल्ली वाली मस्जिद तक, इस बिन्दु से बडखल-पाली रोड़ पर उत्तर दिशा में चलते हुए बडखल गांव के मुख्य गेट तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए बडखल गांव में स्थित टू-बदर्स टेलर्स तक, इस बिन्दु से बडखल गांव में उत्तर दिशा में चलते हुए बिलाल के घर तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए बडखल गांव में स्थित सेटी मैरीज गार्डन तक, इस बिन्दु पश्चिम दिशा में चलते हुए बडखल गांव में स्थित एम.सी.एफ. के ट्यूबवैल नं०-6 तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए बडखल गांव की बाल्मीकी बस्ती में स्थित हरीलाल के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा में चलते हुए बडखल गांव स्थित आयान जनरल स्टोर तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए बडखल गांव स्थित शर्मा क्लीनिक तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलकर एन.आई.एफ.एम. की चारदीवारी के साथ साथ होते हुए एस.जी.एम. नगर में स्थित गुरुद्वारे तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए स्थित एस.जी.एम. नगर में मास्टर ऑटो कम्पोनेन्ट वर्कशॉप तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए दीप क्लीनिक तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए एस.जी.एम. नगर में स्थित लक्की की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए टॉवर वाली गली तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा इसी गली में चलते हुए दिवाकर के म०न० 3889 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए कल्याणपुरी स्थित एम.सी.एफ. के बन्द डिस्पोजल तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए सैनिक कालोनी रोड़ जोकि सै० 48 व 49 की डिवाइडिंग रोड़ है, पर स्थित फैजान कुरैशी हलाली चिकन शॉप तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए मस्जिद चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा में 3 डी ब्लॉक व 3एफ ब्लॉक की डिवाइडिंग रोड़ पर चलते हुए 3 नम्बर ई.एस.आई.सी. चौक तक, इस बिन्दु से रोड़ के साथ साथ उत्तर-पूर्व दिशा में चलते हुए चिमनीबाई धर्मशाला चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम में चलते हुए एस.जी.एम. नगर के मेहता स्वीटस तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 17 :- प्रारम्भिक बिंदु सैक्टर-48, 49 के डिवाइडिंग रोड़ पर सेंट जॉन स्कूल सैनिक कालोनी के उत्तर-पूर्व कोने से पश्चिम दिशा की तरफ सैनिक कालोनी की दक्षिणी-पूर्वी चारदीवारी पर कच्चे रास्ते से होते हुये नवादा डबुआ रोड़ पर टी० जंक्शन तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में डबुआ नवादा रोड़ पर चलते हुये 17 नं० चुंगी चौक तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए सरकारी स्कूल डबुआ के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में डबुआ फिरनी रोड़ पर एडवोकेट प्रवीण त्यागी के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए साक्षी धर्मकांटा तक, इस बिन्दु से डबुआ-पाली रोड़ पर पश्चिम दिशा में चलते हुए राजेश धर्मकांटा तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में डबुआ-पाली रोड़ पर चलते हुये बडखल पाली रोड़ टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में बडखल पाली रोड़ पर चलते हुये चौधरी सूरज भडाना बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए टूलरूम इंजीनियर्स कम्पनी नवादा तक इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुये अलटीमेट धर्मकांटा तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुये बडखल-पाली रोड़ गांव भांकरी में स्कैप गोदाम तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुये बाबा मदार वाले मन्दिर भांकरी गांव तक इस बिन्दु से उत्तर-पूर्व दिशा में पहाड़ी एरिया के कच्चे रास्ते में होते हुये सैनिक कालोनी पुलिस चौकी तक इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में डबुआ-पाली रोड़ पर चलते हुये गुरुग्राम रोड़ के टर्निंग प्वाइंट पर राजेश नर्सरी तक, इस

बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड़ पर चलते हुये बड़खल गांव में कब्रिस्तान के पास आसिफ बिरयानी वाले की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्व दिशा में पहाड़ी क्षेत्र के कच्चे रास्ते से होते हुये कच्चे रास्ते के मुड़ाव तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में कच्चे रास्ते पर आरिफ अर्थ मूवर्स वर्कशॉप के सामने बड़खल गांव आबादी तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुये आयुष खान की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुये आकाश मेटल शॉप तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुये दीप विद्या निकेतन स्कूल बड़खल गांव तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा में चलते हुये बड़खल पाली रोड़ पर कुम्हार वाली पुलिया तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुये सैनिक कालोनी के पास बड़खल-पाली रोड़ टी-प्वाइंट व एन0आई0एफ0एम0 तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा में सेंट जॉन स्कूल सैनिक कालोनी के उत्तर-पूर्व कोने तक, जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 18 :- प्रारम्भिक बिंदु बड़खल-पाली रोड़ पर भांकरी गांव स्थित स्कूप गोदाम से उत्तर दिशा में चलते हुए बाबा मदार वाले मंदिर तक, इस बिंदु से उत्तर-पूर्वी दिशा में पहाड़ी एरिया के कच्चे रास्ते पर चलते हुये बड़खल-पाली रोड़ पुलिस चौकी सैनिक कालोनी तक इस बिंदु से उत्तर पूर्वी दिशा में डबुआ पाली रोड़ पर स्थित राजेश नर्सरी तक, इस बिंदु से उत्तर-पश्चिम दिशा में फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड़ पर कब्रिस्तान के पास गांव बड़खल में आसिफ बिरयानी वाले की दुकान तक, इस बिंदु से उत्तर-पूर्वी पहाड़ी एरिया के कच्चे रास्ते पर चलते हुए कच्चे रास्ते के मोड़ तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में कच्चे रास्ते पर आरिफ अर्थमूवर वर्कशॉप के सामने से होते हुए बड़खल गांव आबादी तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुये आयुष खान की दुकान तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए आकाश मेटल की दुकान तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए बड़खल गांव में अजीज के मकान तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए बड़खल गांव में कूल कंफर्ट एयर दुकान तक, इस बिंदु से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हुए बड़खल गांव में शर्मा क्लीनिक तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए बड़खल गांव में आसीन के घर तक, इस बिंदु से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हुये बड़खल झील तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए सेठी मैरिज गार्डन तक, इस बिन्दु से दक्षिण -पूर्वी दिशा में चलते हुए एम0सी0एफ के टयूबवेल नंबर 6 तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए बड़खल गांव में टू ब्रदर ट्रेलर की दुकान तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए बड़खल-पाली रोड़ पर बड़खल गांव के मुख्य बड़े गेट तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में बड़खल-पाली रोड़ चलते हुए गांव अनखीर के शिव मंदिर तक, इस बिंदु से उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुए गांव अनखीर के जटाधारी मंदिर के पीछे तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में डिलाइट बैंक्वेट (मैरिज गार्डन) के पीछे कच्चे रास्ते चलते हुए 33 फुट जो बड़खल सूरजकुण्ड रोड़ तक जाता है तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए सूरज कुंड रोड़ जंक्शन तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए बड़खल-सूरजकुंड रोड़ पर मानव रचना स्कूल के उत्तर-पश्चिम कोने तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में मानव रचना संस्थान की उत्तरी चारदीवारी के साथ-साथ अरावली पहाड़ी एरिया में कच्चे रास्ते तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए ग्रीनफील्ड कालोनी की चारदीवारी तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में ग्रीनफील्ड कालोनी की चारदीवारी के साथ-साथ ओमैक्स हाईट कालोनी के उत्तर पूर्व कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में बड़खल-सूरज कुंड रोड़ पर चलते हुए एन.एच.पी.सी. कालोनी के उत्तर-पूर्व कोने तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में एन.एच.पी.सी. कालोनी की उत्तरी चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए गुरुकुल रोड़ पर स्थित कमेपतम प्रॉपर्टी कार्यालय तक, इस बिंदु से उत्तर-पूर्व दिशा में चलते हुए अरुण शर्मा के मकान तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए शिवदुर्गा विहार में कल्लू के मकान तक, इस बिंदु से उत्तर-पूर्व दिशा में चलते हुए सिंह ट्रांसपोर्ट तक, इस बिंदु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में चलते हुए शिवदुर्गा विहार में पांडे के मकान तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए बड़खल सूरजकुण्ड रोड़ पर वेदपाल के मकान तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा की ओर बड़खल सूरजकुण्ड रोड़ पर चलते हुए फ़र्न (इबिजा) टाउनशिप बड़खल सूरजकुण्ड रोड़ तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा की ओर चारदीवारी के साथ साथ चलते हुए सूरज कुंड तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में दिल्ली प्रहलादपुर रोड़ पर चलते हुए हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर तक, इस बिंदु से पहले पश्चिम चलते हुये फिर दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर लाईन पर दक्षिण दिशा में चलते हुये पुलिस चौकी पाली स्टोन क्रेशर जोन की चारदीवारी के पास क्रेशर नं० 75 एम0सी0एफ0 सीमा पर फरीदाबाद गुडगांव रोड़ क्रॉसिंग तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में स्टोन क्रेशर जौन की चारदीवारी के साथ-साथ एम0सी0एफ0 की सीमा पर अल्टीमेट धर्मकांटे तक, इस बिंदु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए बड़खल-पाली रोड़ पर भांकरी गांव स्थित स्कूप गोदाम तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिंदु है।

वार्ड नं० 19 :- प्रारम्भिक बिन्दू एस.जी.एम. नगर के बांध रोड़ पर स्थित डॉक्टर राकेश भाटिया की दुकान से शुरू होकर बांध रोड़ पर उत्तर दिशा की तरफ चलते हुये पटेल चौक तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुये हनुमान मन्दिर तक, इस बिन्दु से शमशानघाट रोड़ पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर चलते हुये महाराणा प्रताप पार्क के कोने तक, इस बिन्दु से सैक्टर-21बी0/डी0 की डिवाईडिंग रोड़ पर उत्तर दिशा की ओर चलते हुये सैक्टर-21 डी0 के मकान नं० 164 से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए सै0-21 डी के म0नं० 157 तक, इस बिन्दु से इंदिरा एकंलेव के म0नं० जी-76 की पूर्वी चारदीवारी पर उत्तर दिशा में चलते हुए इस मकान के उत्तर-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से इंदिरा एकंलेव की 30 फुट चौड़ी रोड़ पर पश्चिम दिशा में सै0 21 डी के जलघर के सामने से होते हुए बड़खल-अनखीर लेबर चौक तक, इस बिन्दु से बड़खल-पाली रोड़ पर दक्षिण दिशा में चलते हुये दिल्ली मस्जिद के कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ सैक्टर-48 के अन्दर जाने वाली डुल्स एण्ड डॉल स्कूल रोड़ पर चलते हुये नगर निगम के मिनी डिस्पोजल के कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण की तरफ सैक्टर-48 की अन्दर वाली सड़क पर चलते हुये नगर निगम बूस्टिंग तक, इस बिन्दु से पूर्व की तरफ नूरानी मस्जिद के सामने वाली रोड़ पर चलते हुये नवजीवन मेडिकल स्टोर के कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में एस0जी0एम0 नगर की गली में चलते हुये मोहन डेरी चौक 25 फुट रोड़ के कोने तक, इस बिन्दु से 25 फुट रोड़ पर पूर्व दिशा की तरफ चलते हुये गुरुजी टेलर की दुकान के कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ जी0वी0एनं० स्कूल जाने वाली सड़क पर चलते हुये

मकान नं० 1854 एस०जी०एम० नगर के कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ एस०जी०एम० नगर की गली में मकान नं० 2831 के कोने तक, इस बिन्दु से पहले उत्तर दिशा की तरफ फिर पूर्व दिशा की तरफ चलते हुये एस०जी०एम० नगर के मकान नं० 2179 के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुये एस०जी०एम० नगर के मकान नं० 2829 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ चलकर 25 फुट रोड पर डॉक्टर राकेश भाटिया की दुकान के कोने तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 20 :- प्रारम्भिक बिन्दु अनखीर पुलिस चौकी चौक से सेक्टर-21 सी, सै०-46 व सै०-45 की पश्चिमी सेक्टर रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुए सेक्टर-45 और सै० 46 की डिवाइडिंग रोड के जंक्शन से होकर उत्तर-पश्चिमी दिशा में कच्चा रास्ते पर चलकर सेक्टर-45 और बुढ़िया नाले के साथ होकर रेलवे ट्रैक तक, इस बिन्दु से रेलवे ट्रैक के पश्चिमी किनारे की ओर चलते हुए ग्रीन फील्ड कॉलोनी के रेलवे अंडरपास तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर ग्रीन फील्ड कॉलोनी की 100 फीट सड़क पर चलते हुए चलते हुए गुरुकुल रोड के टी-प्वाइंट तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में गुरुकुल रोड पर चलते हुए सूरज कुण्ड रोड पर स्थित अनंगपुर चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में बडखल-सूरजकुण्ड रोड पर चलते हुए ओमेक्स हाईटस कालोनी के उत्तरी-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में ओमेक्स हाईटस कालोनी की दक्षिणी चारदीवारी पर चलते हुए ओमेक्स हाईटस कालोनी के उत्तर-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में ओमेक्स हाईटस कालोनी की चारदीवारी पर चलते हुए इस चारदीवारी के पूर्वी मोड़ तक, इस बिन्दु से ओमेक्स हाईटस कालोनी की चारदीवारी के साथ से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दक्षिण-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से पहाड़ी वाले रास्ते पर दक्षिण दिशा में चलते हुए ग्रीनफील्ड कालोनी की चारदीवारी की सीध तक, इस बिन्दु से पूर्वी दिशा में पहले कच्चे रास्ते पर आगे ग्रीनफील्ड कालोनी की चारदीवारी पर चलते हुए दक्षिण दिशा में जाने वाले कच्चे रास्ते तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में पहाड़ी वाले रास्ते पर चलते हुए इस रास्ते के मोड़ तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर कच्चे रास्ते पर चलते हुए बडखल-सूरज कुण्ड रोड पर स्थित एम.वी.एन.स्कूल के दक्षिण-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से बडखल-सूरज कुण्ड रोड पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए पाली रोड के मोड़ तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में बडखल-सूरजकुण्ड रोड पर चलते हुए डिलाइट बैंक्वेट हॉल के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से डिलाइट बैंक्वेट हॉल की उत्तरी चारदीवारी के साथ-साथ 33 फुट रोड पर पश्चिम दिशा में चलते हुए डिलाइट गार्डन के दक्षिण-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से डिलाइट गार्डन की चारदीवारी के साथ-साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए फिर दक्षिण-पूर्वी दिशा में पहाड़ी कच्चे रास्ते पर चलते हुए जटाधारी मंदिर के पीछे तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में अनखीर गांव के चौ० रामकिशन रोड पर चलते हुए बडखल-अनखीर गांव के मोड़ तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में बडखल-पाली रोड पर स्थित लेबर चौक तक, इस बिन्दु से इंदिरा एंकलेव की 30 फुट चौड़ी रोड पर पूर्वी दिशा में निगम के जलघर से सामने से होते हुए इंदिरा एंकलेव के म०नं० जी-76 के उत्तर-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से इस मकान की पूर्वी चारदीवारी पर दक्षिण दिशा में चलते हुए सै० 21 डी. के म०नं० 157 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए म०नं० 164 के सामने सै० 21 बी व सै० 21 डी की डिवाइडिंग रोड तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए महाराणा प्रताप पार्क के उत्तर-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में सेक्टर 21 बी की 60 फुट चौड़ी सड़क पर चलते हुए बजरंग प्रार्पटीज की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए गांधी कॉलोनी के उत्तर में भाटिया क्रेन वाली गली के कोने पर स्थित बालाजी होम एप्लायेंस दुकान नं० (ई-28) तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में भाटिया क्रेन वाली गली में चलते हुए न्यू कालोनी के म०नं० 76-बी तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित जे.एम.सी. एंटरप्राइजेज के कार्यालय तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए रेलवे स्टेशन पार्किंग के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए औल्ड फरीदाबाद प्रवेश मार्ग रोड के अंडरपास तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर राजीव चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर बडखल फ्लाईओवर मोड़ तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में बडखल फ्लाईओवर से चलते हुए अनखीर चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 21 :- प्रारम्भिक बिन्दु अनखीर पुलिस चौकी चौक से उत्तर-पूर्वी दिशा में 30 मीटर चौड़े रोड पर चलते हुये सेक्टर-45-46 डिवाइडिंग रोड के जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्व दिशा में सेक्टर-45 की पश्चिम दिशा में कच्चे रास्ते पर होते हुये व बुढ़िया नाले के उत्तर-पश्चिम किनारे से होते हुये रेलवे ट्रैक तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में रेलवे ट्रैक के पूर्वी किनारे से होते हुये गांव मेवला महाराजपुर के अण्डरपास कासिंग तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में अण्डरपास से होते हुये जंक्शन जो दिल्ली मथुरा रोड को जोड़ता है तक, इस बिन्दु से दिल्ली मथुरा रोड के पश्चिमी किनारे से होते हुये बडखल फ्लाईओवर तक इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुये अनखीर पुलिस चौकी चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 22 :- प्रारम्भिक बिन्दु सूरजकुण्ड रोड पर अनंगपुर चौक पर स्थित नाहरसिंह के मकान के सामने स्थित ग्रीनबैल्ट से उत्तर दिशा में चलते हुए एन.एच.पी.सी. आवासीय कालोनी का गेट नं० 2 के उत्तर पश्चिमी कोने तक, उस बिन्दु एन.एच.पी.सी. आवासीय कालोनी की उत्तरी चारदीवारी के साथ जंगल में कच्चा रास्ते पर चलते हुए गुरुकुल रोड पर स्थित प्लॉट नं० 12/6 तक, उस बिन्दु गुरुकुल रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुए ग्लोबल स्कूल के उत्तर पश्चिमी कोने तक, उस बिन्दु से पश्चिमी दिशा में कच्चे रास्ते पर म०नं० 63/2 गुरुकुल इण्डस्ट्रीयल एरिया के कोने तक, उस बिन्दु से उत्तर की तरफ कच्चे रास्ते पर चलते हुए सी.एस.सी. सैन्टर, ध्रुव के डेरे के कोने तक, उस बिन्दु से पश्चिम की तरफ कच्चे रास्ते पर चलते हुए सतीश के मकान के कोने तक, उस बिन्दु से उत्तर की तरफ कच्चे रास्ते पर चलते हुए ध्रुव के डेरे में राजू के मकान तक, उस बिन्दु से उत्तर की तरफ चलते हुए म०नं० आई-120, सुभाष कालोनी के कोने तक, उस बिन्दु से पश्चिम की तरफ चलते हुए म०नं० जी-2/32 के कोने तक, उस बिन्दु से उत्तर की तरफ चलते हुए म०नं० 727 एम.सी.एफ./120 शिव दुर्गा विहार तक, उस बिन्दु से पश्चिम की तरफ चलते हुए शिव दुर्गा विहार के म०नं० एफ-2/336 के कोने तक, उस बिन्दु से उत्तर की

तरफ चलते हुए शिव दुर्गा विहार के म0नं0 एफ-248 के कोने तक, उस बिन्दु से पूर्व की तरफ चलते हुए शिव दुर्गा विहार की शॉप नं0 3 ब्लॉक डी-3 के कोने तक, उस बिन्दु से उत्तर की तरफ चलते हुए रेलवे लाईन के फाटक पर स्थित देसी शराब के ठेके तक, उस बिन्दु से उत्तर की तरफ रेलवे लाईन के साथ साथ चलते हुए सन्तोष कालोनी में स्थित रामकुमार के मकान तक, उस बिन्दु से पूर्व की तरफ नाले के किनारे चलते हुए कटन गाडी मार्किट के कोने तक, उस बिन्दु से दक्षिण की तरफ चलते हुए 579 बी रेलवे फाटक पूर्वी गेट नं0 2 तक, उस बिन्दु से पूर्व की तरफ कच्चे रास्ते पर चलते हुए मैन दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित मैट्रो पिलर नं0 418 तक, उस बिन्दु से दक्षिण दिशा में दिल्ली मथुरा रोड के पश्चिमी किनारे पर चलते हुए प्लॉट नं0 14/6 कॉयरफोम कम्पनी के दक्षिण पूर्वी कोने तक, उस बिन्दु से पश्चिम दिशा में रेलवे लाईन पर बने अण्डरपास से होते हुए प्लाट नं0 14/5, सै0-27 बी डॉयको एक्सपोर्ट के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, उस बिन्दु से रेलवे लाईन की पश्चिमी दिशा में चलते हुए ग्रीफील्ड कालोनी में बनी दुकान बी-6 के कोने तक, उस बिन्दु से ग्रीनफील्ड कालोनी के मध्य में स्थित 100 फुट चौड़ी रोड पर पश्चिमी दिशा में चलते हुए म0नं0 सी/3550, सै0-42 के कोने तक, उस बिन्दु से पश्चिम दिशा में गुरुकर रोड पर चलकर सूरजकुण्ड रोड पर स्थित अंगंगपुर चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं0 23 :- प्रारम्भिक बिंदु सूरजकुंड रोड पर स्थिति नाहर सिंह पेट्रोल पम्प के उत्तर पश्चिम के कोने से शुरू होकर पूर्वी दिशा में लकड़पुर जाने वाली सड़क पर नाहर सिंह पेट्रोल पम्प के उत्तर पूर्वी कोने तक, इस बिंदु से इसी पेट्रोल पम्प के पूर्वी दिवार के साथ साथ दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए अत्ते भाटी मकान के सामने से जाते हुए इबजा टॉवर कॉलोनी की चारदीवारी तक, इस बिंदु से पूरब की तरफ इसी चारदीवारी के साथ चलते हुए इबजा कॉलोनी के उत्तर-पूर्वी कोने तक, इस बिंदु से दक्षिण की तरफ चलते हुए उक्त चारदीवारी के दक्षिण पश्चिम कोने तक, इस बिंदु से इबजा टॉवर के पूरब की तरफ जाने वाली चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए लकड़पुर स्थित भीम भड़ाना के मकान तक, उस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए मोही नारायण झा के मकान तक, इस बिंदु से पूरबी दिशा में चलते हुए सुकल बलराज भड़ाना के मकान तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में इबजा कॉलोनी की चारदीवारी के साथ-साथ लकरपुर बूस्टिंग के दक्षिण पश्चिम कोने तक, इस बिंदु से पूरब दिशा में चलते हुए लेकवुड सिटी की चारदीवारी के साथ-साथ राधा कृष्ण मंदिर तक, इस बिंदु से लेकवुड सिटी की चारदीवारी के साथ-साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए रामविलास ठाकुर के मकान तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा में चलते हुए मास्टर जी के मकान व दुकान तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए छोटे भड़ाना के मकान तक, इस बिंदु से पूरब दिशा में चलते हुए नेत्रपाल के मकान तक व आगे महावीर लोहिया लक्ष्मी बिल्डर शॉप तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए सरोज कुमार के मकान व दुकान तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में ही आगे चलकर पटनायक स्टोर वह आई.सी.आई.सी. बैंक के एटीएम तक, इस बिंदु से पूरब दिशा में चल कर लकड़पुर फाटक तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए रेलवे लाइन के पूर्वी किनारे के साथ होकर दयालबाग के प्लॉट नंबर 1 के ब्लॉक ए के मकान तक, इस बिंदु से पश्चिम की तरफ जाने वाली दिल्ली-हरियाणा सीमा के साथ-साथ भोले भड़ाना की जमीन तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए दयाल बाग कॉलोनी की चारदीवारी के साथ-साथ सूरज कुंड इंटरनेशनल क्रिकेट अकैडमी तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए संजीव जैन की दुकान तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए निशांत के प्लैट तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए ईरोज गार्डन के मंदिर तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में ईरोज गार्डन की चार दिवारी के साथ-साथ दयालबाग नाले तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा की तरफ दिल्ली राज्य की सीमा के साथ साथ चलते हुए कंट्री क्लब के कोने तक जोकि सूरजकुंड प्रहलाद पुर रोड पर स्थित है, इस बिंदु से इसी रोड पर दक्षिण दिशा में चलते हुए सूरजकुंड गोल चक्कर तक, इस बिंदु से सूरजकुंड रोड पर पूर्वी दिशा में चलते हुए फिर दक्षिण दिशा की तरफ होकर सूरज कुंड रोड पर स्थित नाहरसिंह पेट्रोल पंप के उत्तर- पश्चिमी कोने तक जो कि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिंदु है

वार्ड नं0 24 :- प्रारम्भिक बिन्दु हरियाणा-दिल्ली रेवेन्यु सीमा पर सराय ख्वाजा की देशराज मार्किट से दिल्ली-मथुरा रोड पर दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए बुढिया नाले के मोड़ तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर बुढिया नाले के साथ साथ पुराने बुढिया नाले पुल औल्ड शेरशाह सूरी रोड तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में पुराने शेरशाह सूरी रोड पर चलते हुए एन.टी.पी. सी. कालोनी के उत्तरी कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में एन.टी.पी.सी. कालोनी की उत्तरी चारदीवारी के साथ चलते हुए बाईपास रोड पर टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से बाईपास रोड पर उत्तरी दिशा में चलते हुए पुराने पल्ला पुल को जाने वाले जंक्शन तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में पल्ला-सेहतपुर रोड पर चलते हुए पल्ला-सेहतपुर व पल्ला-तिलपत के वाई जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में सेहतपुर रोड पर चलते हुए बांध रोड के जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में बांध रोड पर चलकर सरस्वती कालोनी के साथ आगरा नहर पर बने नये पुल तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में आगरा नहर के साथ बने रोड पर चलते हुए सीधा एम.सी.डी. टौल तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में हरियाणा-दिल्ली बार्डर से होते हुए सैक्टर-37 में बने शमशानघाट तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में बाईपास रोड के साथ-साथ हरियाणा-दिल्ली रेवेन्यु सीमा पर चलते हुए हरियाणा-दिल्ली रेवेन्यु सीमा पर सराय ख्वाजा की देशराज मार्किट तक, जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं0 25 :- प्रारम्भिक बिंदु आगरा कैनाल के पूर्वी किनारे पर बांध रोड व मीठापुर-पल्ला रोड के जंक्शन से चलते हुए एम. सी.डी. के टौल तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दिल्ली-हरियाणा सीमा के साथ दुर्गा मंदिर (दुर्गा बिल्डर कालोनी) तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा के साथ बंसल प्रॉपर्टीज तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर दिल्ली- हरियाणा सीमा के साथ चलते हुए ओम एनक्लेव स्थित जय प्रकाश के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में दिल्ली-हरियाणा सीमा के साथ की ओर चलते हुए हृदय नारायण के घर तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए ओम आर.एस. बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर दिल्ली-अगवानपुर रोड पर चलते हुए ओम एनक्लेव चौक (जगत सिंह के मकान) तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए ओम

एनक्लेव स्थित मां वैष्णो देवी टेंट हाउस तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर दुर्गा बिल्डर्स कालोनी की आन्तरिक रोड तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए डी.पी.एस. कालोनी (ओम एंक्लेव) के पिछले हिस्से तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर गांव अगवानपुर की फिरनी रोड के साथ-साथ चलते हुए अंबेडकर चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए विनय नगर रोड पर शमशान घाट के सामने से होकर अरविंद बाइक प्वाइंट तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गंगाराम कालोनी स्थित बिलीवर (Believer) ईस्टर्न चर्च तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सूर्या विहार पार्ट-II के यादव निवास हाउस नंबर 81 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए श्री गणेश फ्रेब्रिकेशन एंड वर्कशॉप तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दिनेश रस्तोगी के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए धर्मद्र मंडल के मकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए दिलीप के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए बाबू महाराज की मिठाई की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए सूर्या विहार स्थित दीपक आचार्य के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए सूर्या विहार स्थित प्रेमसिंह के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सूर्या विहार स्थित श्यामलाल के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए सूर्या विहार स्थित बाबू रवि के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सूर्या विहार स्थित योगेन्द्र के मकान (आरोग्य क्लीनिक) तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर गांव तिलपत की राजस्व सीमा के साथ (बाबा राम केवल के मकान व सुशील बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर) तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर खाली खेतों में से चलते हुए शिव कॉलोनी स्थित देवेन्द्र के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्व की दिशा की ओर चलते हुए आगरा कैनाल के पूर्वी किनारे पर बांध रोड व मीठापुर-पल्ला रोड के जंक्शन तक, जोकि इस वार्ड का प्रारंभिक बिंदु है।

वार्ड नं० 26 :- प्रारंभिक बिंदु मुख्य अगवानपुर-बसंतपुर रोड पर स्थित अम्बेडकर चौक से दक्षिण-पूर्व दिशा में चलते हुए विनय नगर चौक तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 30 फुट रोड पर चलते हुए श्री बालाजी स्वीट्स एंड कैटरर्स तक, इस बिंदु से उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए हन्नी डेयरी एंड बेकरी तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए तिलपत रैन्ज की चारदीवारी के पास स्थित अर्जुन कॉमती के मकान तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए पुश्ता रोड पर स्थित नैना देवी मंदिर तक, इस बिंदु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में चलते हुए 33 फुट रोड पर स्थित खाटू पंसारी की दुकान तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए इस्माईलपुर गांव में स्थित आनंद ज्वैलर्स की दुकान तक, इस बिंदु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए शिव एंक्लेव में स्थित आर.एस. पब्लिक स्कूल तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए शिव एंक्लेव की गली नं० 9 में स्थित शर्मा पावर सोल्यूशन (इन्वर्टर की दुकान) तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए शिव एंक्लेव की गली नं० 9 में कृष्णा मेडिकल स्टोर तक जोकि मेन पल्ला बसंतपुर रोड पर स्थित है, इस बिंदु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पंचशील कालोनी की गली नं० 1 में स्थित श्याम वाटिका तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए दिल्ली बोर्डर पर नगर निगम की सीमा तक, इस बिंदु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलते हुए दिल्ली बोर्डर पर (एडनबर्ग सिटी सोसायटी-पार्ट-2) के साथ-साथ चलकर अनिल मिश्रा की दुकान तक, इस बिंदु से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मेन ओम एंक्लेव-मीठापुर रोड पर स्थित गुप्ता जी जनरल स्टोर तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गली नं० 5 के कोने पर स्थित मां वैष्णो टेंट हाउस तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए गली नं० 5 के अंतिम छोर पर स्थित जगदीश मेहतो के मकान से होते हुए दुर्गा बिल्डर व नगर निगम की डिवाइडिंग रोड तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए डी.पी.एस. कालोनी के कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व की तरफ चलते हुए अगवानपुर गांव की फिरनी तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व की तरफ फिरनी रोड पर चलते हुए अगवानपुर-बसंतपुर रोड पर स्थित अम्बेडकर चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारंभिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 27 :- प्रारंभिक बिंदु जंहा पर हरियाणा की सीमा यूपी सीमा से मिलती है (गांव अगवानपुर की सीमांत राजस्व सीमा) पर स्थित बांध रोड से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए 33 फुट चौड़ी चुंगी रोड पर स्थित बजरंग चौक तक, इस बिंदु से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर 33 फुट चुंगी रोड पर चलते हुए इस्माईलपुर गांव में स्थित खाटू श्याम पंसारी की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में इस्माईलपुर गांव की फिरनी रोड पर चलते हुए आनंद जेवेलर्स की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए आर.एस. पब्लिक स्कूल तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में चलते हुए शर्मा पावर सोल्यूशन (इन्वर्टर की दुकान) तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में पल्ला-बसंतपुर रोड पर चलकर कृष्णा मेडिकल स्टोर तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में मेन पल्ला-इस्माईलपुर रोड पर चलते हुए सचिन टेंट हाउस तक, इस बिंदु से पश्चिम दिशा में चलते हुए पंचशील कॉलोनी की पश्चिमी बाउंड्री (दिल्ली-हरियाणा सीमा) तक, इस बिंदु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए दिल्ली-हरियाणा की सीमा से लेकर दिल्ली-यूपी-हरियाणा सीमा तक, इस बिन्दु से दक्षिण की ओर चलते हुए उस बिन्दु अगवानपुर बांध रोड तक जंहा पर हरियाणा की सीमा यूपी सीमा से मिलती है, जो की इसका प्रारंभिक बिंदु है।

वार्ड नं० 28 :- प्रारंभिक बिन्दु तिलपत-मवाई रोड पर ए.बी.सी. ट्रेडर्स जो कि तिलपत शूटिंग रैन्ज की चारदीवारी के साथ है से उत्तर दिशा में इस चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए जवाहर लाल की वर्कशॉप के सामने तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए हनुमन्त कॉलोनी पार्ट-1 के पीछे से होते हुए बिजेन्द्रसिंह के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए हरकेश कालोनी में स्थित मुंशी के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पवन जनरल स्टोर तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलकर हरकेश कालोनी में स्थित अशोक कुमार वर्मा के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में तिलपत की राजस्व सीमा के साथ चलते हुए ओम प्रिन्ट की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में तिलपत की राजस्व सीमा के साथ साथ चलते हुए दिक्षा पब्लिक स्कूल के प्ले ग्राउण्ड तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा में चलते हुए गली नं० 9 के दूसरे मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सूर्या विहार-2 की दुकान नं० डी-66 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर गली नं० 8 में चलते हुए अमरपाल के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर

दिशा की ओर चलते हुए केशव गोयल के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए गली नं० 6 सूर्या विहार-2 के अंतिम छोर तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए बिलीवर इस्टर्न चर्च अगवानपुर तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए अगवानपुर के स्वर्गधाम शमशानघाट तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुए विनय नगर चौक तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ 30 फुटा रोड पर चलते हुए महेन्द्र शाह की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए शकील की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए तिलपत शूटिंग रैन्ज की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में तिलपत शूटिंग रैन्ज की चारदीवारी के साथ साथ चलते हुए बजरंग चौक अजय नगर तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में ददसिया रोड के साथ तिलपत शूटिंग रैन्ज की चारदीवारी के साथ साथ चलते हुए गांव ददसिया के मोड़ तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में तिलपत शूटिंग रैन्ज की चारदीवारी के साथ साथ ददसिया रोड पर चलते हुए तिलपत शूटिंग रैन्ज की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से पहले दक्षिण में फिर पश्चिम में घूमते हुए फिर उत्तर में तिलपत शूटिंग रैन्ज की चारदीवारी के साथ साथ चलते हुए तिलपत-मवई रोड पर ए.बी.सी. ट्रेडर्स तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 29 :- प्रारम्भिक बिन्दु दिल्ली-मथुरा रोड पर गांव मेवला महाराजपुर के शमशानघाट के कोने से पूर्व दिशा में चलते हुए रामस्वरूप ठी स्टाल तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए स्प्रिंगफील्ड कालोनी के ब्लॉक-5 के प्लॉट नं० 5 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में बंगाल शूटिंग रोड पर चलते हुए पुराने शेरशाह रोड पर स्थित वरखा इन्टरप्राइजिस (बंगाल शूटिंग चौक) तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए सै० 30 के उत्तर-पश्चिमी कोने (कम्युनिटी सेन्टर के पास) तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलकर बाईपास रोड पर स्थित एम.सी.एफ. के ट्यूबवैल तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलकर आजाद कॉम्प्लेक्स तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में औल्ड कैनाल पुल को जोड़ने वाली अन्दरूनी रोड पर चलते हुए गुडगांव नहर के कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में आगरा नहर के पूर्वी किनारे पर रास्ते पर चलते हुए धीरज नगर स्थित जयप्रकाश के मकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में धीरज नगर की गली में चलते हुए चन्द्रप्रकाश के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलकर धीरज नगर में पवन चौधरी की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए धीरज नगर की गली नं० 2 स्थित पीयूषसिंह के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हुए सुशील वॉटर प्लांट तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलकर धीरज नगर स्थित शॉपिंग मेगामार्ट शॉपिंग सेन्टर के पास तनुज बैसला के कार्यालय तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलकर तिलपत शूटिंग रैन्ज की चारदीवारी के पास धीरज नगर स्थित बाबूलाल के मकान तक, इस बिन्दु से तिलपत शूटिंग रैन्ज की चारदीवारी के पर उत्तर दिशा में चलते हुए हनुमंत कालोनी स्थित डूंगर शर्मा की दुकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए तिलपत की हनुमन्त कालोनी में दक्ष पण्डित के खेत (जगह) के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए हनुमन्त कालोनी स्थित अजय यादव के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए तिलपत की हरकेश नगर की आश्रम वाली गली में स्थित श्याम की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में हरकेश नगर की हनुमान मंदिर वाली गली में विनोद के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए वजीरसिंह के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए जोगिन्द्र पण्डित के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चन्द्रपालसिंह की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में पल्ला-तिलपत रोड को जाने वाली रोड पर चलते हुए छज्जन नगर स्थित अमरचन्द मार्केट तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में पल्ला-तिलपत रोड पर चलते हुए सुरेन्द्र की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में छज्जन नगर की गली में चलते हुए नाले पर स्थित वी.के.इन्टरनैशनल स्कूल तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में चलते हुए पल्ला-तिलपत रोड व बांध रोक के जंक्शन तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए पल्ला-सेहतपुर एवं पल्ला-तिलपत रोड के वाई-जंक्शन पर स्थित शराब की दुकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में पल्ला पुल व बाईपास रोड के जंक्शन तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में बाईपास रोड पर चलते हुए एन.टी.पी.सी. कालोनी के उत्तरी कोने तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए एन.टी.पी.सी. कालोनी के पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए राजीव नगर के नजदीक स्थित बुढिया नाले के पुल तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में बुढिया नाले के पश्चिमी किनारे पर चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर एन.एच.पी.सी. चौक के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में दिल्ली-मथुरा रोड पर चलते हुए गांव मेवला महाराजपुर के शमशानघाट के कोने तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 30 :- प्रारम्भिक बिन्दु दिल्ली-मथुरा रोड पर स्थित एनकॉन फैक्ट्री से पूर्व दिशा में चलते हुए सै०-31 के प्लॉट नं०-7 में स्थित श्री सिल्क क्रिएटिव तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए जनरल रबड़ फैक्ट्री तक, इस बिन्दु से सीधा पूर्व दिशा में चलते हुए चौ० महीपाल कॉम्प्लेक्स तक, इस बिन्दु से थोड़ा आगे उत्तर दिशा में सै० 30 को जाने वाली रोड पर सै०-30 के म०न० 739 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए बाईपास रोड तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में गांव एतमादपुर व श्रमिक विहार के मध्य रोड पर चलते हुए श्रमिक विहार में स्थित दिनेश वर्मा के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में रोड पर चलते हुए श्रमिक विहार में स्थित अत्री के क्वार्टरों तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए दोनो नहरों को पार करते हुए फिर दक्षिण की ओर रोड के साथ-साथ चलते हुए बीरपाल के कृषि फार्म से होकर टीडू कालोनी में स्थित रविकान्त के म०न० 46 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलकर टीडू कालोनी में बेद्यनाथ के मकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए टीडू कालोनी में स्थित अपना मैडीकल स्टोर तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलते हुए टीडू कालोनी में महेशचन्द्र शर्मा की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्वी दिशा में सीधा चलते हुए साईं नगर में स्थित भगत सिंघल की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए साईं नगर में स्थित प्रवीन कुमार शर्मा के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में गांव तिलपत व मवई की राजस्व सीमा से होते हुए साईं नगर में स्थित धर्मेन्द्र भडाना के प्लॉट तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलते हुए एम.सी.एफ. की रिक्त भूमि से होकर गांव मवई के शमशानघाट के पीछे से चलकर गांव मवई में स्थित अशोक हार्डवेयर की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए अल्फा कान्वेंट स्कूल मवई तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए रमन पण्डित की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में

चलते हुए गांव मवई में बिज्जन के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में ललित जनरल स्टोर के सामने से होते हुए सिंचाई विभाग के नाले तक, इस बिन्दु से पूर्वी दिशा में नाले के साथ साथ चलते हुए गांव मवई स्थित भूपेश पण्डित के फैंक्ट्री शैड के सामने से होते हुए नाले को पार करके सीधा दक्षिण में चलकर पैरी-फैरी रोड तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए सीधा दिल्ली-मथुरा रोड पर बडकल पुल तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर स्थित एनकॉन फैंक्ट्री तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है

वार्ड नं० 31 :- प्रारम्भिक बिन्दु सैक्टर-89 माता अमृतामयी मार्ग (मास्टर रोड) पर स्थित मुशी फार्म हाउस से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुए पुलिस लाइन के उत्तरी-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व-उत्तरी दिशा से चलते हुए जीवन नगर में स्थित मै० मशीन टूल्स प्लॉट नं० 129 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए मॅस्कीटर कम्पनी तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए जीवन नगर के प्लॉट नं० 4 में स्थित शिव पॉउडर कम्पनी तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए इन्दिरा कॉम्प्लैक्स में स्थित निर्मल पॉलीमर प्रा०लि० तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए राधा रानी बिल्डिंग मैटेरियल तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए साईं कार्ड होम प्रा०लि० तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुए चौ० जगन नागर के मकान के पीछे तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए बच्चू लाल प्रसाद के मकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए रामप्रवेश के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए राजू के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए नन्द लाल के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए खेडी रोड पर स्थित कामनी देवी के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए खेडी रोड पर स्थित मनोज के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए राजेश यादव के मकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में पुरानी खेडी रोड पर चलते हुए नसीमन के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए रिंकी फैशन एण्ड बुटिक एण्ड ब्यूटी पार्लर तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए ल्युमिनस पॉवर स्टोर तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए निगम की डेयरी स्कीम तक, इस बिन्दु से पूर्व व दक्षिण दिशा में कच्चे रास्ते पर चलते हुए आर.पी.एस. सोसायटी के पीछे तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए अमोलिक व आर.पी.एस. सोसायटी व मैन खेडी रोड के टी-प्वाइंट तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए बर्फी चौक (टी. डी.आई.-1 सोसायटी का मेन गेट) तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए दिल्ली स्कॉलर्स इन्टरनैशनल स्कूल, सै-88 तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में सैक्टर रोड पर चलते हुए टीका कालोनी को जाने वाले कच्चे रास्ते के मोड़ तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में कच्चे रास्ते पर चलते हुए टीका कालोनी के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में हुडा के निर्माणाधीन एस.टी.पी. के बीच से नगर निगम की सीमा पर चलते हुए प्रीतमसिंह पुत्र सूरजसिंह के खेतों तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में तिलपत एयरफोर्स रैंज की चारदीवारी के साथ-साथ नगर निगम की सीमा पर चलते हुए गिरदावर एंक्लेव की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए धीरज नगर स्थित तनुज बैसला प्रापर्टी डीलर की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुए धीरज नगर में स्थित सुशील बैसला के वाटर प्लांट तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुए पियूषसिंह के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए पवन चौधरी की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए दिनेश कौशल के मकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए देशराज पुत्र लक्ष्मण प्रसाद के मकान के पीछे तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए 44 फुट रोड पर स्थित साईं बीकानेर स्वीट्स तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हुए प्रमोद जनरल स्टोर तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए मवई साईं नगर के एयरटेल मोबाईल के टावर नं० 22022 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए दक्षिण-पूर्व दिशा में चौ० होराम कालोनी स्थित धर्मेन्द्र भडाना के कार्यालय तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में नाले के साथ-साथ चलते हुए अशोक हार्डवेयर इलैक्ट्रीकल्स शॉप तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए अल्फा स्कूल तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए रमन पण्डित के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मवई होली चौक/मवई बारातघर तक, इस बिन्दु से पश्चिम-दक्षिण दिशा में चलते हुए ललित फार्म तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए चौ० भापाल फार्म तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए साईं मन्दिर के पीछे तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए सैक्टर-89 माता अमृतामयी मार्ग (मास्टर रोड) पर स्थित मुशी फार्म हाउस तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है ।

वार्ड नं० 32 :- प्रारम्भिक बिन्दु सैक्टर-17,18 डिवार्डिंग रोड के सामने गुडगांव कैनाल पर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए खेडी पूल के नजदीक पुलिस चौकी तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए वजीरपुर रोड के मोड़ पर स्थित चौधरी स्वीट्स तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में वजीरपुर रोड पर चलते हुए पुलिस लाइन के प्रवेश द्वार तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में चलते हुए पुलिस लाइन की बाउंड्री वाल तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में पुलिस लाइन की बाउंड्री वॉल के साथ-साथ चलते हुए पुलिस लाइन के उत्तर-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में चलते हुए पुलिस लाइन की उत्तर-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए जीवन नगर के प्लॉट नं० 129 मै० मशीन टूल्स के कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए जीवन नगर के मस्केटर प्लॉट नं०-1 तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए जीवन नगर के प्लॉट नं०-4 (शिव पॉउडर कोटिंग) तक, इस बिन्दु दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए वजीरपुर रोड पर स्थित निर्मल पॉलीमर प्रा०लि० तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए वजीरपुर रोड पर राधा रानी बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर तक, इस बिन्दु से दक्षिण में पक्के रोड पर चलते हुए भारत कालोनी के आन्तरिक रोड पर स्थित साईं कार्ड होम प्रा०लि० तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में फरीदाबाद की राजस्व सीमा पर चलते हुए चौ० जगन नागर के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए बज्जू लाल प्रसाद के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुए रामप्रवेश के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए राजू के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में चलते हुए नन्दलाल के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए कामिनी के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए भारत कालोनी में स्थित मनोज के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए विकास नगर में राजेश यादव के तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर खुले स्थल से चलते हुए नसीमन के

मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए औल्ड खेडी रोड पर स्थित रिंकी फैशन एण्ड बुटिक एण्ड ब्यूटी पार्लर तक, इस बिन्दु से औल्ड खेडी रोड पर चलते हुए ल्युमिनश पॉवर स्टोर तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए खेडी रोड पर बसेलवा डेयरी स्कीम तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर चलते हुए खेडी रोड पर एस.आर.एस. पर्ल सोसायटी के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में एस.आर.एस. पर्ल सोसायटी के पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में एस.आर.एस. पर्ल सोसायटी की पूर्वी बाउंड्री पर चलते हुए एस.आर.एस. पर्ल सोसायटी के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में कच्चे रास्ते पर एस.आर.एस. पर्ल सोसायटी के बाउंड्री वॉल के साथ-साथ चलते हुए एल.आर. फूड लि0 (ब्रैड फैक्ट्री) के उत्तर-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए सत्या फूड प्रॉडक्ट शॉप तक, इस बिन्दु पश्चिम दिशा में चलते हुए इन्दिरा कॉम्प्लेक्स में स्थित इस्लाम के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए इन्दिरा कॉम्प्लेक्स में स्थित अमरुदीन के मकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए इन्दिरा कॉम्प्लेक्स की गली को पार करते हुए सेक्टर-17,18 डिवाइडिंग रोड के सामने गुडगांव कैनाल तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 33 :- प्रारम्भिक बिन्दु सेक्टर-28-19 के टी-जंक्शन पर स्थित पूजा फर्नीचर से औल्ड फरीदाबाद मार्केट में दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए भगवाना स्वीट्स शॉप तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा में मैन बाजार रोड पर चलते हुए अनाज मण्डी के नजदीक अशोक पान भंडार तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में अनाज मण्डी रोड पर चलते हुए महावीर मंदिर के सामने सैयदवाडा मोड तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए आर्यन् कपडे वाली दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए एल.आर. फूड लि0 (ब्रैड फैक्ट्री) के उत्तर-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए सत्या फूड प्रॉडक्ट शॉप तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलते हुए सैनी चौक (लेबर चौक) तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए शनि मंदिर (भीम बस्ती) के कोने तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए गिर्राज की बतासे वाली दुकान/गोदाम तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चर्च के सामने से होते हुए एन०आर० इन्जीनियरिंग वर्क्स तक इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुये शनिदेव मन्दिर (बाढ़ मोहल्ला) तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बाढ़ मोहल्ला में स्थित नरेंद्र दत्त के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में डा० अम्बेडकर मार्ग पर स्थित निपुण अल्ट्रासाउंड की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में डा० अम्बेडकर मार्ग पर चलते हुए बाई-पास रोड की तरफ सेक्टर-17,18 डिवाइडिंग के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में बाईपास रोड पर चलते हुए प्रेम नगर की झुगियाँ में स्थित मस्जिद तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए गुडगांव कैनाल के पश्चिमी किनारे तक, इस बिन्दु से उत्तरी दिशा में गुडगांव कैनाल के पश्चिमी किनारे पर चलते हुए खेडी पुल पर स्थित पुलिस चौकी तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए गुडगांव कैनाल व आगरा कैनाल को पार करते हुए वजीरपुर जाने वाली रोड के कोने नी स्थित चौ० स्वीट्स तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्व दिशा में वजीरपुर रोड पर चलते हुए पुलिस लाइन को जाने वाले रास्ते के मोड तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हुए पुलिस लाइन की चारदीवारी के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्व दिशा में पुलिस लाइन की बाउंड्री वाल पर चलते हुए बाउंड्री वाल के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर पश्चिम दिशा में कच्चे रास्ते करुणा नगर से होकर माता अमृतामयी मार्ग (मास्टर रोड) पर स्थित मुंशी फार्म तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर मास्टर रोड पर चलकर गुडगांव कैनाल व आगरा कैनाल बाईपास रोड को पार करते हुए सेक्टर-28-19 के टी-जंक्शन पर स्थित पूजा फर्नीचर औल्ड फरीदाबाद तक जोकि इसका प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 34 :- प्रारम्भिक बिंदु दिल्ली-मथुरा रोड, बडखल मोड पर स्थित बीकानेर मिष्ठान भण्डार की दुकान से पूर्व दिशा की ओर सै०-28 व 19 की डिवाइडिंग रोड पर चलते हुए सेक्टर 19 के अंतिम कोने तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में सै०-19 के पूर्व में सेक्टर रोड पर चलते हुए भगवाना स्वीट की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में औल्ड फरीदाबाद मैन बाजार की रोड पर चलते हुए (कन्हैया हार वाले) की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में अनाज मण्डी रोड पर चलते हुए महावीर मंदिर के सामने सैयदवाडा मोड तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए आर्यन् कपडे वाली दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए एल.आर. फूड लि0 (ब्रैड फैक्ट्री) के उत्तर-पूर्वी कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए सत्या फूड प्रॉडक्ट शॉप तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए शनि मंदिर (भीम बस्ती) के कोने तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए गिर्राज की बतासे वाली दुकान/गोदाम तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चर्च के सामने से होते हुए एन०आर० इन्जीनियरिंग वर्क्स तक इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुये शनिदेव मन्दिर (बाढ़ मोहल्ला) तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बाढ़ मोहल्ला में स्थित नरेंद्र दत्त के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में डा० अम्बेडकर मार्ग पर स्थित निपुण अल्ट्रासाउंड की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में डा० अम्बेडकर मार्ग पर चलते हुए सेक्टर 16, 17, 18 के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में सै०-16 व 17 की डिवाइडिंग रोड पर चलते हुए तक सै० 16 के म०न० 1699 के कोने तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर मोतीमहल रोड पर चलते हुए सै०-16-16ए के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में सै०-16-16ए की डिवाइडिंग रोड पर चलते हुए लाला लाजपत राय चौक तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में डा० अम्बेडकर मार्ग पर चलते हुए गांव दौलताबाद मेन रोड पर स्थित पी.सी. फार्मसी की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में दौलताबाद गांव के बीच वाला रास्ता जोकि वीरसिंह पुत्र श्री हरकिशन (जाट मोहल्ला) के मकान के सामने से गुजरते हुए सेक्टर 16ए के मकान न० 238 के पीछे तक, इस बिन्दु से पश्चिमी दिशा में सै०-16ए की मार्केट वाले रोड पर चलते हुए सेक्टर 16 ए के मकान न० 224 के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में सेक्टर 16ए की 60 फुट चौडी रोड पर चलते हुए सै०-16ए के म०न० 211 के कोने तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलकर सेक्टर 16ए के म०न० 186 तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलकर सेक्टर 16ए के म०न० 175 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में डा० अम्बेडकर मार्ग तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में डा० अम्बेडकर मार्ग पर चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर स्थित ओल्ड फरीदाबाद राजीव गांधी चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में दिल्ली-मथुरा रोड पर डी.पी.एस. स्कूल के सामने से चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड बडखल मोड पर स्थित बीकानेर मिष्ठान भण्डार की दुकान तक जो कि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिंदु है।

वार्ड नं० 35 :- प्रारम्भिक बिन्दू उत्तर पश्चिम दिशा के मकान नं० 1394 सै० 16-17 के डिवाइडिंग से दक्षिण दिशा में सीधा चलते हुए डिवाइडिंग रोड सैक्टर-16-17 और सैक्टर-14-15 से होते हुए सैक्टर-12 व 15 टी प्वाइंट तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में सीधा चलते हुए डिवाइडिंग रोड सैक्टर-15ए-12 दिल्ली-मथुरा रोड टी प्वाइंट दक्षिण-पूर्वी दिशा के कोने पर एस्कॉर्ट्स कम्पनी तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में दिल्ली-मथुरा रोड पर चलकर रीजेन्ट होन्डा की एजेन्सी तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए अजरौन्दा सब्जी मंडी को जाने वाली सड़क के मोड़ तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए बृजवासी स्वीट्स दुकान तक, इस बिन्दु से पश्चिमी दिशा में चलते हुए टी प्वाइंट पर स्थित खेमचन्द गर्ग की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए सै०-15ए मार्किट के उत्तर-पूर्वी कोने के सामने निगम के बूस्टर तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए म०न० 1 सै०-15ए तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए म०न० 14, सै०-15ए तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए म०न० 65, सै०-15ए के नजदीक स्थित पार्क तक, इस बिन्दु से थोड़ा पूर्व दिशा में चलकर ट्यूबवैल के साथ से उत्तरी दिशा में चलते हुए टी प्वाइंट पर स्थित म०न० 85 सै० 15ए तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए म०न० 84 सै० 15ए के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में म०न० 84 सै०-15ए की पश्चिमी चारदीवारी के साथ-साथ चलते हुए लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित सै० 15ए व 16ए डिवाइडिंग रोड तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर मैट्रो पिलर नं० 758 तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए औल्ड फरीदाबाद स्थित राजीव चौक तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में डिवाइडिंग रोड सैक्टर-16ए और सैक्टर-19 से उत्तर-पूर्वी दिशा में मकान नं० 174 सैक्टर-16ए तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ते हुये दक्षिण पूर्वी दिशा के मकान नं० 174 सैक्टर-16ए तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए मकान नं० 175 सैक्टर-16ए तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुये मकान नं० 185 सैक्टर-16ए तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलकर सैक्टर-16ए के मकान नं० 211 तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलकर सैक्टर-16ए के म०न० 238 तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए सुनील बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर गांव दौलताबाद तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में गांव दौलताबाद के रास्ते से होते हुए मैक्स मैडीकल स्टोर तक, दौलताबाद गांव के नजदीक सैक्टर-16ए-सैक्टर-19 के डिवाइडिंग रोड के बीच से पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुये लाला लाजपत राय चौक तक जोकि सैक्टर-16, 16ए, 19, और 18 के जंक्शन प्वाइंट है तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये होटल मोती महल के दक्षिण दिशा की ओर टी जंक्शन तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुये टी-प्वाइंट तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 36 :- प्रारम्भिक बिन्दू सैक्टर 14-15 डिवाइडिंग रोड के साथ सैक्टर 12-14 के डिवाइडिंग रोड (भारती गुप्ता आई केयर सेन्टर) से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए लेबर चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर सै० 16-17 के डिवाइडिंग रोड से गुजरते हुए सै०-17 के म०न० 212 से होते हुए सै० 17-18 विभाजन रोड तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बाईपास रोड तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर सै०-17 के पेट्रोल पम्प के सामने तक, इस बिन्दु से सै०-17 के पेट्रोल पम्प के सामने से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए नहरों पर बने पुलों की कॉसिंग तक, इस बिन्दु से आगरा कैनाल के साथ साथ गुजर कर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पदम नगर में स्थित भूसा की टाल तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए सत्या फूड प्रॉडक्ट शॉप तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलकर संजय के घर और अनु प्रॉडक्ट कम्पनी के बीच में से होते हुए एल.आर.फूड प्रा०लि० (ब्रैड कम्पनी) तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए एस.आर.एस. पर्ल हाईट सोसायटी के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए कच्चा खेड़ी रोड (श्री सिद्धेश्वर महाराज मन्दिर) तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती मार्ग पर साई राम स्टोर तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए अमोलिक चौक और यहां से उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए डी.पी.एस. चौक नियर विपुल प्लाजा तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बी.पी.टी.पी. पुल तक और फिर इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सैक्टर 14-15 के डिवाइडिंग रोड पर स्थित (भारती गुप्ता आई केयर सेन्टर) तक जोकि इसका इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 37 :- प्रारम्भिक बिन्दु औल्ड खेड़ी रोड व सैक्टर 87-88 डिवाइडिंग रोड के जंक्शन से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुए आर.पी.एस.सोसाइटी की दक्षिणी चारदीवारी तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए सी.जे.सी. यूनिट ग्रीनहाउस तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए वरदान रियल्टर्स तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुए सैक्टर 88-89 के डिवाइडिंग चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए बाहरी पेरी-फेरी रोड तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए बादशाहपुर गांव के मेन गेट के नजदीक तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए पलवली सीवर प्लांट तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए हरदयाल के ट्यूबवैल व गुल्लु के खेत तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए गुल्लु के खेतों की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से थोड़ा सा उत्तर दिशा में चलते हुए ओझा के खेत की चारदीवारी तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए ओझा के खेत की मौजूदा चारदीवारी के अंत तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए देवेन्द्र के खेत तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए गांव टिकावली व बादशाहपुर के डिवाइडिंग रोड तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में गांव टिकावली, बादशाहपुर, भूपानी, नचौली, फरीदपुर की राजस्व सीमा पर चलते हुए फरीदाबाद-तिगांव रोड तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हुए गांव फरीदपुर के सरकारी स्कूल तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में आउटर पेरी-फैरी रोड पर चलते हुए विष्णु गार्डन तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए गांव पुरानी खेड़ी-भतौला रोड तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए औल्ड खेड़ी-भतौला रोड पर चलते हुए सैक्टर 82-83 के डिवाइडिंग रोड तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए चंदीला चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में गांव फज्जुपुर के चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए गांव बडौली के चौक तक, इस बिन्दु से से दक्षिण दिशा में चलते हुए सै० 76-77-78-79 के जंक्शन तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए गांव बडौली के सी०सै० स्कूल (सै०-75) तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिम दिशा में चलते हुए बडौली के पुराने पुल तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में आगरा नहर की पटरी पर स्थित

रोड पर चलते हुए बी.पी.टी.पी. चौक सैक्टर 80-81 रोड तक, इस बिन्दु से पूर्व-दक्षिण दिशा से चलते हुए डी.पी.एस. चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में सैक्टर 87-88 डिवाइडिंग रोड पर चलते हुए औल्ड खेड़ी रोड व सैक्टर 87-88 डिवाइडिंग रोड के जंक्शन तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिंदु है।

वार्ड नं० 38 :- प्रारम्भिक बिन्दू बाईपास रोड पर स्थित बी.पी.टी.पी. चौक से पूर्व दिशा में चलते हुए आगरा नहर के पुल तक, इस बिन्दु से आगरा नहर के पूर्वी किनारे पर दक्षिण दिशा में चलते हुए बडौली पुल तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए बाईपास रोड तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए सै० 8 व 9 की टी-प्वाइंट तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में सैक्टर-6, 7 व 8 और सैक्टर 9, 10 व 11 की डिवाइडिंग रोड पर चलते हुए वाई.एम.सी.ए. चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में दिल्ली-मथुरा रोड पर चलते हुए मुजेसर फाटक रोड के कोने पर स्थित ज्जनउच भ्लनदकंप शोरूम तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए मुजेसर रेलवे लाईन के पश्चिमी किनारे तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में पश्चिम की साईड रेलवे लाईन के साथ-साथ चलते हुए कृष्णा कालोनी में स्थित चन्द्रकेश के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में कच्चे रास्ते पर चलते हुए रैडीसन ब्लु होटल रोड पर स्थित छटघाट तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में रैडीसन ब्लु होटल रोड पर चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में दिल्ली-मथुरा रोड पर चलते हुए सै०-12 व सै०-15 की डिवाइडिंग रोड के मोड़ तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में सैक्टर-12 और 15 की डिवाइडिंग रोड पर सीधा चलते हुए बाईपास रोड पर स्थित बी.पी.टी.पी. चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 39 :- प्रारम्भिक बिन्दू दिल्ली-मथुरा रोड पर स्थित वाई.एम.सी.ए. कॉलेज से पूर्व दिशा में सै० 6 व 7 के डिवाइडिंग रोड पर चलते हुए बाईपास रोड के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में बाईपास रोड पर चलते हुए बडौली पुल के टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर बडौली पुल पर चलते हुए आगरा कैनाल के पूर्वी किनारे तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में गुडगांव कैनाल के पश्चिमी किनारे पर चलते हुए गुडगांव कैनाल के मोड़ तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में गुडगांव कैनाल के दक्षिणी किनारे पर चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड पर स्थित वाई.एम.सी.ए. चौक तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 40 :- प्रारम्भिक बिंदु बल्लभगढ़-तिगांव रोड पर स्थित आगरा कैनाल का दक्षिण-पूर्वी कोना जोकि आगरा नहर का पूर्वी किनारा है पर स्थित तिगांव पुल से पश्चिमी दिशा में तिगांव रोड पर चलते हुए बोहरा पब्लिक स्कूल रोड के मोड़ पर स्थित डोमिनोज पिज्जा तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए बोहरा पब्लिक स्कूल के गेट तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुए वर्मा बैग हाउस (दुकान) तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में 33 फुट रोड पर चलते हुए पीपल चौक तक, इस बिन्दु से पूर्वी दिशा में सै०-3 पेट्रोल पम्प रोड पर चलते हुए सी.आर. प्लाजा तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में 33 फुट रोड पर चलते हुए गुरुग्राम नहर पर स्थित दिल्ली जूस कॉर्नर तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए गुरुग्राम नहर के दक्षिणी किनारे के साथ-साथ चलकर आगरा नहर के पूर्वी किनारे के टी-प्वाइंट तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में आगरा नहर के पूर्वी किनारे पर चलते हुए बल्लभगढ़-तिगांव रोड पर स्थित तिगांव पुल तक जो कि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिंदु है।

वार्ड नं० 41 :- प्रारम्भिक बिन्दू बल्लभगढ़ घण्टा घर, अग्रसेन चौक से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुये अम्बा मेडिकल स्टोर (हुड्डा चौक) तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुए मोहना रोड पर हेमन्त इन्टरप्राइजिज तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में मोहना रोड पर चलते हुए दिल्ली जूस कॉर्नर तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलते हुए इन्डीकेश के ए.टी.एम. (नियर नाला) तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिमी दिशा में चलते हुए आकाश सिनेमा के पीछे (नाला) तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्व दिशा से चलते हुए बैंक ऑफ़ इण्डिया के साथ-साथ मोहना रोड पर चलते हुए फव्वारा चौक तक, इस बिन्दु से पश्चिम की तरफ हस्पताल रोड पर चलते हुए दशहरा मैदान मैट्रो पार्किंग के साथ-साथ दिल्ली-मथुरा रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुए स्टैंड हेल्मेट शॉप तक जोकि गुडगांव कैनाल के नजदीक है, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में गुडगांव कैनाल के साथ-साथ चलते हुए (ओम भोजनालय) सुरेन्द्र तेवतिया मार्केट तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में सै०-3 के पेट्रोल पम्प रोड पर चलते हुए सी.आर. प्लाजा (जाट भवन के सामने) तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए पुलिस चौकी रोड पर स्थित दीपक सैनी की किताबों की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलते हुए चौहान आइक्रीम की दुकान तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा में चलते हुए बोहरा पब्लिक स्कूल के मेन गेट तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में रोड पर चलते हुए तिगांव रोड पर स्थित डोमिनोज पिज्जा तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में तिगांव रोड पर चलते हुए हरिओम स्वीट्स (सीही गेट) तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में चलते हुए अग्रसेन चौक पर घण्टाघर तक जो कि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 42 :- प्रारम्भिक बिंदु तिगांव रोड व सिही गेट रोड जंक्शन के नजदीक आर.के.टॉवर से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में सिही गेट रोड पर चलते हुए घंटाघर चौक स्थित अग्रसेन पुलिस चौकी तक, इस बिन्दु से दक्षिणी-पूर्वी दिशा में मिल्क प्लांट रोड पर चलते हुए हुड्डा चौक पर स्थित अम्बा मेडिकल स्टोर तक, इस बिंदु से दक्षिण दिशा में चलते हुए मोहना रोड पर स्थित हेमन्त इन्टरप्राइजेज तक, इस बिंदु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में मोहना रोड पर चलते हुए बाईपास रोड पर रैड लाइट तक, इस बिंदु से उत्तर दिशा में बाईपास रोड पर चलते हुए बाईपास रोड पर स्थित सै०-3 के डिस्पोजल तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी दिशा में बल्लभगढ़-तिगांव रोड पर चलते हुए तिगांव रोड व सिही गेट रोड जंक्शन के नजदीक आर.के.टॉवर तक जोकि इस वार्ड का प्रारम्भिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 43 :- प्रारम्भिक बिन्दू दिल्ली-मथुरा रोड पर स्थित नैशनल ट्रेडिंग की दुकान जोकि सिविल हॉस्पिटल रोड के मोड़ पर स्थित है से पूर्व दिशा में सिविल हॉस्पिटल रोड पर होते हुए सिटी पार्क, बल्लभगढ़ फौवारा चौक तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए मोहना रोड बल्लभगढ़ पर स्थित बैंक आफ इंडिया तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पश्चिमी

दिशा की तरफ चलते हुए आकाश सिनेमा व सिटी पार्क के बीच की मुकेश कालोनी वाली रोड पर स्थित बचपन इट्स (Bachpan its) प्ले स्कूल तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर मोहना रोड पर नाले के साथ चलते हुए महावीर कालोनी की पुलिया पर स्थित जुगनू ऑटो सैन्टर तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर चलते हुए उंचा गांव रोड पर स्थित पूर्व पार्श्व दयाचन्द यादव के ऑफिस तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए उंचा गांव के सूबेदार रोड के कोने पर स्थित महेन्द्र के घर तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए उंचा गांव के सुबेदार रोड होकर मलेरना रोड पर स्थित विनोद सिंगला की दुकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ मलेरना रोड पर चलकर बालाजी कॉलेज रोड के मोड़ पर सरपंच चौक तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ बाला जी कॉलेज रोड पर चलते हुए सुभाष कालोनी मेन रोड पर स्थित मुरारी की बिजली की दुकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए किसान भवन के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक, इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए अनाज मण्डी फड के कोने तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए अनाज मण्डी रोड स्थित डिस्पोजल तक, इस बिन्दु से पश्चिम की तरफ चलते हुए दिल्ली-मथुरा रोड टी-जंक्शन तक, इस बिन्दु से उत्तर की तरफ दिल्ली-मथुरा रोड पर चलते हुए नैशनल ट्रेडिंग की दुकान तक जोकि इस वार्ड का प्रारंभिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 44 :- प्रारंभिक बिन्दु मोहना रोड पर स्थित गुप्ता होटल के नजदीक हरिकिशन जूस कॉर्नर से मोहना रोड पर दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुए चन्दावली गांव के पास बाईपास रोड पर स्थित आनन्द शर्मा के मकान तक, इस बिन्दु से पहले दक्षिण दिशा की ओर फिर पश्चिम दिशा में बाईपास रोड पर चलते हुए रेलवे ट्रैक पर रेलवे ओवरब्रिज तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में रेलवे ट्रैक के पूर्वी किनारे पर चलते हुये गली नं०-13 में स्थित मकान नं० 1306, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए सुभाष कालोनी रोड पर गली नं० 13 के सामने स्थित आशा रानी के मकान तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए सुभाष कालोनी मेन रोड पर स्थित मुरारी बिजली की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा की तरफ बालाजी कॉलेज रोड पर चलते हुये मलेरना रोड पर स्थित सरपंच चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में मलेरना रोड पर चलते हुए उंचागांव के सूबेदार मार्ग के कोने पर स्थित विनोद सिंगला की दुकान तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में उंचागांव के सूबेदार मार्ग पर चलते हुए उंचागांव के फिरनी रोड पर स्थित महेन्द्र के मकान तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुए उंचागांव फिरनी रोड पर स्थित पूर्व पार्श्व दयाचन्द यादव के ऑफिस तक, इस बिन्दु से उत्तर-पश्चिम दिशा में चलते हुए गुप्ता होटल के समीप महावीर कालोनी की पुलिया पर स्थित जुगनू ऑटो सैन्टर तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में चलते हुए मोहना रोड पर गुप्ता होटल के नजदीक स्थित हरिकिशन जूस कॉर्नर तक जो कि इस वार्ड का प्रारंभिक बिन्दु है।

वार्ड नं० 45 :- प्रारंभिक बिन्दु बाईपास रोड पर रेलवे फ्लाईओवर से पूर्व दिशा में बाईपास रोड पर चलते हुये आगे बाईपास रोड पर उत्तर दिशा में चलते हुये तिगांव रोड पर स्थित गुड़गांव व आगरा कैनाल के पुल तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुये आगरा कैनाल के पूर्वी किनारे तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुये सैक्टर-75 व 80 की डिवाइडिंग रोड तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में चलते हुये सैक्टर-78 व 79 की डिवाइडिंग रोड तक, इस बिन्दु से उत्तर दिशा में चलते हुये चन्दीला चौक तक, इस बिन्दु से उत्तर पूर्व दिशा में सैक्टर-82-83 की मध्य की रोड पर चलकर ओल्ड खेड़ी-भतौला रोड तक, इस बिन्दु से उत्तर-पूर्वी दिशा में खेड़ी-भतौला रोड पर चलते हुये सैक्टर-83 व 84 की डिवाइडिंग रोड तक, इस बिन्दु से पूर्व दिशा में सैक्टर-83 व 84 की डिवाइडिंग रोड पर चलते हुये आउटर पैरीफैरी रोड पर स्थित विष्णु गार्डन तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में चलते हुये तिगांव रोड पर स्थित फरीदपुर गांव के सरकारी स्कूल तक, इस बिन्दु से दक्षिण-पूर्वी दिशा में चलते हुये संत साहिब सतलोक आश्रम तक, इस बिन्दु से दक्षिण दिशा में नीमका, नवादा, मच्छगर, सोतई, साहुपरा की राजस्व सीमा पर चलते हुये बाईपास रोड पर स्थित रेलवे फ्लाईओवर के कोने तक, जोकि इस वार्ड का प्रारंभिक बिन्दु है।

अरुण गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 7th April, 2022

No. 18/31/2022-5C1.— In pursuance of the provisions of Rules-10 of the Haryana Municipal Corporation Delimitation of Ward Rules, 1994 and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department notification no. 18/31/2022-5CI, dated 4th March, 2022 and in supersession of all previous orders/notifications issued in this behalf, the Governor of Haryana hereby publish the Delimitation of Wards of **Municipal Corporation, Faridabad, District-Faridabad** as under:-

Schedule of Boundaries

Ward No. 01 :- Starting point from Delhi-Mathura road where the Southern limit of Municipal Corporation, Faridabad intersect at Delhi-Mathura Road, moving towards North along with Delhi-Mathura Road upto JCB Chowk, thence moving towards West on 200 ft. wide road Western boundary of Sector-25 up to the junction of Sohna Road, thence moving towards West on Sohna Road upto the junction of Barfani Sweets Sector-55, thence moving towards South-West upto the House of Ved Ram, Sector-55, thence moving towards South up to Labour Chowk of Sector-55, thence moving towards East on 18 mtr. wide road of Sector-55 upto corner of Mother Dairy Booth, thence moving towards South upto corner of H.No. 185, Sector-55, thence moving towards East upto the corner of H.No.186 of Sector-55, thence moving towards West upto H.No. 628, Sector-55, thence moving towards South upto Tubewell (pocket 400) on North edge of the Agra Canal, thence moving towards West on the edge of Gurugram Canal upto the junction of Gurugram Canal Bridge of Sector-56, thence moving towards South on Sector-56 road upto house of Sh. Dharam Namberdar, thence moving towards West on road upto the corner of house of Sh. Satbir Master, thence moving towards South on the road upto H.No. 3592 Sector-56, thence moving towards West upto the Firmi of Pratapgarh village, thence moving towards South through H.No. 3422 Sector-56 upto Rawal Public School Sector-56, thence moving towards West alongwith boundary wall of Rawal Public School upto the boundary wall of Metro Building, thence moving towards South alongwith boundary wall of metro building upto South-East corner of Metro building, thence moving towards West upto MCF Disposal/STP of Sector-56, thence moving towards North on the boundary wall of disposal upto the North-West corner of STP, thence moving towards South adjoining to the boundary wall of Disposal upto the corner of Nallah, thence moving towards West on the edge of Nallah upto the corner of boundary wall of Dalip colony, thence moving towards East-Southern on Southern boundary/limit of MCF upto CIA Police Post at Sector-56, thence moving towards South upto Gaurav Hospital, thence moving towards East upto the Primary School/Om Valley Vatika, thence moving towards South-East on boundary/limit of MCF upto the corner of FIT Sector-57, thence moving towards South and South-East boundary/limit of MCF upto starting point at Delhi-Mathura Road where the Southern limit of M.C.F. intersect, which is starting point of this ward.

Ward No. 02 :- Starting Point from at Delhi-Mathura road where Southern boundary of MCF intersect to Delhi-Mathura road moving towards North on Delhi-Mathura road up to the JCB company chowk, thence moving towards West then North on 200 ft. Wide road of located at North of Sector-25 up to Sohna road junction, thence moving towards West on Sohna road up to the T-junction of Hardware-Sohna road, thence moving towards North on 200 ft. Wide Hardware-Sohna road upto Mujesar shamshan Ghat near Gounchhi Drain pulia, thence moving towards East on the Western edge of the Gaunchhi drain up to railway line, thence moving towards South up to Mujesar Fatak, thence moving towards East on Mujesar Fatak road up to the T-junction at Delhi-Mathura road, thence moving towards South on Delhi-Mathura road up to the road turning to the Anaj mandi/Disposal, thence moving towards East on Northern boundary wall of Disposal up to South-West corner of disposal, thence moving towards South on main road of Subhash Colony up to the Kiryana shop of Harish Kumar at gali no-13, thence moving towards West on gali no.13 up to the H.no.1097 of Mahesh Chaudhary, thence moving towards South alongwith Railway line up to the Southern boundary of MCF, thence moving towards South-West on Southern boundary of MCF alongwith Bapu Nagar Flat up to the Delhi-Mathura road where Southern boundary of MCF intersect to Delhi-Mathura road which is the starting point of this Ward.

Ward No. 03 :- Starting Point from Shop of Udham Dagar at the corner of 33 ft. road situated on 200 feet wide Sohna-Hardware road (Dr Rajender Parsad Marg) moving towards West on 33 ft. road upto Mahender Cycle shop at corner of Gali No.25, thence moving towards South-West upto Subhash Kirana Store, Gali No.25, thence moving towards West upto Parveen Gym Wali Gali no. 25, thence moving towards North on 22ft. road upto house of Naresh Pandit situated at Gali no 31, thence moving towards West on main 33 ft. Wide road upto the corner of the ATM of ICICI Bank, thence moving towards South upto MD Medical Store, thence moving towards West upto house of Dr.Rattan Lal Gupta near Jayoti Hospital, thence moving towards South on Gali no.28 of Sanjay colony upto house of Shukla, near nalah, thence moving towards West up to house of Banti Sardar, thence moving towards South-West on Sohna road upto Hari Kothi, thence moving towards South-West upto Tewatia Petrol Pump situated at Jeewan Nagar Part-2, thence moving towards Eastern Edge of Gaunchhi Drain upto the corner mor of Alam khan Kabari, thence slightly moving towards West upto Chowk of Saroorpur Pulia, thence moving towards South on Western Boundary/Limit of MCF up to the Mod of Raasta going to STP Sector-56, thence moving towards North up to South-East corner of STP, thence moving towards East up to South-West corner of STP, thence moving towards South up to North-East corner of STP, thence moving towards East up to South-West corner of STP, thence moving towards East up to the boundary wall of Metro colony, thence moving towards North along with Metro boundary wall up to the South-East corner of Metro boundary wall, thence moving towards East on Metro colony up to the Mod of Rawal Bal Shiksha Kendra, thence moving towards North up to the corner of boundary wall of Rawal Bal Shiksha Kendra, thence moving towards East upto house No. 3577 of Mundra Singh at sector-56, thence moving towards North upto the corner of road located in the back of H.No. 3595 sector-56, thence moving towards North upto house of Dharampal & field of Sunder, thence moving towards East upto house of Kaushik Niwas (Ex. Sarpanch) of Sector-56,

thence moving towards North upto the Satbir's house, thence moving towards West upto the T-junction at 100 ft. Wide Sector road, thence moving towards South on 100 ft. Road up to the Bridge on Gurgaon canal Sector-56, dharm Numberdar House, thence moving towards upto the Bridge of Gurgaon Canal sector-56, thence moving towards South-West on the edge of Gurgaon Canal upto the Badminton Park, thence moving towards North upto H.No.192 (Samar House) Sector- 55, thence moving towards East upto the House No. 186 (Chaudhary Hosue) of Sector-55, thence moving towards North upto the House No. 634 (Jindal House), Sector -55, thence moving towards West upto to the Hosue No. 170 (A.K. Panday House) Sector-55, thence moving towards North upto to Community Centre, Sector-55, thence moving towards West upto the labour Chowk of Sector-55, thence moving towards North upto Pandit Ved Ram Mandir, thence moving towards North- East upto the Police Chowki, Barfani Chowk situated at Sohna Road Sector-55, thence moving towards East on Ballabgarh-Sohna Road upto Reliance Mart Store, thence moving towards North upto Shop of Udham Dagar at the cornor of 33 ft. road situated on 200 feet wide Sohna-Hardware road which is the starting point of this Ward.

Ward No. 04 :- Starting point from South-West corner of the Mujeshar Disposal at Mujeshar Nallah N.I.T industrial area, moving towards East alongwith Southern edge of Mujeshar Nallah upto the Eastern edge of Railway Track, thence moving towards North on the Eastern edge of railway track upto the intersection of Bata Flyover, thence moving towards West on Bata - Hardware Road upto the last street of Janta Colony, thence moving towards South upto the Shiv Mandir of New Janta Colony, thence moving towards East upto the T-Point of 200 feet wide road on west of N.I.T industrial area at the corner Dr. B.R Ambedkar Park, thence moving towards South upto Saran chowk, thence moving towards South West upto the Gurudwara road cornor, thence, moving towards East alongwith boundary wall of Old Press Colony upto the Shop of Hari Pansari located at Press Colony Sabji Mandi Road, thence moving towards North East upto the Old Shiv Temple, thence moving towards South East alongwith boundary wall of Old Press Colony upto Candal motors E-bike agency, thence moving towards south West alongwith Gaunchi drain upto gali no. 54 in house of Ram buddan in sanjay colony sector 23, thence moving towards East on gali no.54 upto Bharat Medical store at 33 ft sanjay colony road, thence moving towards South on 33ft road Sanjay Colony road upto the Sh. Shyam Cement Agency on Gali No. 42 of Sanjay Colony ,thence moving towards East upto the mother dairy Shop No. 17957 on 22ft Road Sanjay Colony, thence moving towards North shop of Gautam Electronics on 22ft Road Gali No. 13, thence moving towards East on Gali No. 13 upto the H.No. 3208 of Sh. Devdutt Sharma Sanjay Colony, thence moving towards South upto the back side of H.No. 1957 Sector-23A thence moving towards East upto the H.No. 1941 23A thence moving towards North upto the rear boundary wall of Housing Colony of Bijli Board thence moving towards East alongwith rear boundary wall of Housing Colony of Bijli Board upto the Hardware Sohna Road thence moving towards North on Sohna Hardware Road upto the front of crimination ground of Sector-22 which is starting point of this Ward.

Ward No. 05 :- Starting point Sector-23 situated in the South boundary wall of Bijli Board Housing Colony moving towards West upto the H.No. 1894, Sector 23A of Sh. Dahiya, thence moving towards South upto the H.No. 1941 (50 Gaj pocket) Sector 23A, thence moving towards West upto the Lamba Chowk Sanjay Colony, thence moving towards North upto the Ved D.J Wali Gali No. 12 Sanjay Colony, thence moving towards West on 22 feet road Sanjay Colony upto the Om Medicose, thence moving towards South upto the Mother Dairy, thence moving towards West on 33ft wide road up to Shayam Cement Agency, Thance moving towards north on 33 feet road up to Bharat Medical Store, thence moving towards West on gali no.54 upto the Gaunchi drain (Vikas Balmiki shop), thence moving towards South upto the Chhoti pulia in gali no.8, thence moving towards West on Vaid Road upto the Sai hair saloon, thence moving towards South on Vaid Road upto gauchi drain puliya, thence moving towards West on South edge of gauchi drain, upto the Ghode wali gali, thence moving towards South upto the lala Kasyap shop, thence moving towards East upto the pooja convent School, thence moving towards South upto Main Gate Of Apna Ghar Society the T-point of Ballabgarh Sohna road, thence moving towards South Easton Ballabgarh Sohna road upto the Hari Kothi, thence moving towards North East upto the shop of Sardar Banti, thence moving towards East on Gali no.28 upto the House of Sukhla near Nallah, thence moving towards North upto the house of Rattan lal gupta near Jayoti Hospital , thence moving towards East upto the M.D Medical Store, thence moving towards North on 33 ft road in gali no.31 (ATM of ICICI), thence moving towards East on gali no.31 upto the house of Sh. Naresh Pandit, thence moving towards South upto the Praveen Zym wali gali, thence moving towards East on 33 ft roadup to shop of Subhash Kirana store in Gali 25, near of Police Chowki, thence moving towards East upto the shop of Mahender Cycle wala situate in Gali No. 25, thence moving towards North upto the shop of Udham Dagar in Sanjay Colony, thence moving towardseast in Gali no.25 up to T- point of Sohna Hardware road.thence moving towards North on Sohna Hardware Road South boundary wall of Bijli Board Housing Colony which is a starting point of this Ward.

Ward No. 06 :- Starting Point from Arjun Hair Dresser located on T point of 60 feet Air Force Road, moving towards South upto Super Store near Nain Chowk, thence moving towards East upto T Point of Saran School Raod, thence moving towards North (Saran Village) upto Druve Clinic Jawahar Colony, thence moving towards East upto the House No. 1035 of Manoj Kumar, Jawhar Colony, thence moving towards North upto the house No. 958 of Sh. Satish Kumar, thence moving towards East upto the Gurudwara road, thence moving towards North upto the Bada

Gurudwara Jawahar Colony thence moving towards East on Bania Wali Gali in front of upto the Gaunchi Drain, thence moving towards South West alongwith Gaunch drain upto the Gali no. 8 of Kunwar Bhan, thence moving towards West upto the Sai hair dresser, thence moving towards South upto the Gali no. 4, void road, thence moving towards West upto the Shop of Muskan Sweets, Saran road, thence moving towards North on Saran Road upto the Anandpur Ashram wali Gali, thence moving towards West upto the House of Member Singh Rawat on the T point of this Gali, thence moving towards South the passing Parshuram Dharmshala upto the Ranvir Building material, thence moving towards West upto the Hanuman Marg, thence moving towards North upto the office of Rakesh Sadwal, thence moving towards West upto the Tula Ram School, thence moving towards East upto the Ravan Mandir, thence moving towards North East upto the Mama Bhanja Saloon, thence moving towards North West upto the T- Point Nangla road, thence moving towards North East upto the Madhav Bhawan Sunder colony, thence moving towards North West upto the Muslim mathersha in gali no.5, thence moving towards West upto the House of Ram Parkash, thence moving towards North West upto the Boundary wall of Airforce station, thence moving towards East upto alongwith Airforce station Boundary wall upto Shiv Boundary of Shiv dutt Sharma, thence moving towards North upto the house of Amar Singh, thence moving towards West upto the house of Eco pandit, thence moving towards North upto the main gate of Air force station, thence moving towards East on main Airfoce road upto the Arjun Hair dresser. Which is a starting point of this ward.

Ward No. 07:- Starting point from Gali No.4, Vaidh Road Parvatia Colony moving towards south upto New Gupta Kirana Store on the edge of Gaunchi Drain thence moving towards west upto Ghode wali Gali, thence moving towards south upto boundary wall of Apna Ghar Society, thence moving towards west on Ballabgarh Sohna Road upto Tewatia Petrol Pump located Gaunchi Drain Pulia Sohna Road, thence moving towards south on eastern edge of Gaunchi Drain upto south west boundary/limit of MCF, thence moving towards north-west on MCF boundary/limit which is turning towards West then towards north then again towards north west, thence moving towards North-East where it meet to Ballabgarh Sohna Road, thence moving towards South-East on Ballabgarh Sohna Road upto the Govt. School of Nangla village, thence moving towards North-East then East on Firni road up to the Hous of Nambardar, thence moving towards South on Firni road up to Sohna road T-point, thence moving towards South-East on Sohna road up to the Tyagi Oyo Hotel, Sohna Road Nagla Enclave Part-1, thence moving towards north upto house of Sh. Baljeet, thence moving towards east upto Yuvraj Hair Saloon, thence moving towards north upto Tubewell of Sh. Chanderpal, thence moving towards east upto Aara Machine Road, Nangla Enclave Part-1 thence moving towards south upto GHY Kids School thence moving towards south upto Maharana Pratap Chowk thence moving towards east upto Tower wala House thence moving towards south upto Atal Chowk thence moving towards east upto Modi Chowk thence moving towards south Baba Mandeep (Sonu Readymade Garments) thence moving towards south upto Lodhi Chowk thence moving towards east upto Radhika Beauty Parlour thence moving towards north upto AP Auto Centre thence moving towards east upto Dharamvir Hair Dresser thence moving towards north upto house of Sh. Sunil Arya thence moving towards east upto rear gate of Shivaji School thence moving towards north upto the house of Sh. Shyam Lal thence moving towards east upto the Parsu Ram Dharamshala thence moving towards north upto the Anandpur Sahab Ashram thence moving towards east upto Saran Road, thence moving towards south upto Muskan Sweets, thence moving towards east upto Gali No.4, Vaidh Road Parvatia Colony which is a starting point of this ward.

Ward No. 08 :- Starting point at Shiv Shakti Enterprises Ballabgarh Sohna Road at Dry Canal, thence moving towards South-East on Ballabgarh Sohna Road upto the Govt. School of Nangla village, thence moving towards North-East then East on Firni road up to the Hous of Nambardar, thence moving towards South on Firni road up to Sohna road T-point, thence moving towards South-East on Sohna road up to the Tyagi Oyo Hotel Sohna road, thence moving towards North upto the Baljeet House, thence moving towards North upto the Yuvraj Hair Saloon, thence moving towards North upto the Chander Pal wala (tubwell/aara machine), thence moving towards East upto the Rising Convent School, thence moving towards South upto the Maharana Pratap Chowk, thence moving towards upto Verma Jewelers, thence moving towards North upto the Atal Chowk thence moving towards North upto the Nody Communicatoin (Rawan Mandir Road), thence moving towards North East upto the Muskan Tailor, thence moving towards North West upto the K.D School, Nangla Road, thence moving towards North East upto the Tarun Fabric, thence moving towards North East upto the house of Ishwar, thence moving towards West alongwith the boundary of Airforce staion upto the Shanidev Mandir , thence moving towards West upto the Krishna traders, thence moving towards south upto the Bala ji mandir, thence moving towards South West upto the crossing of Nangla- Gajipur road, thence moving towards South upto the Kaushik Medical Store, thence moving towards West upto the starting point of this Ward.

Ward No. 09 :- Starting point from Dabua Pali Road, near Nawada chowk moving towards South on Mani ki Tal wali road upto gali of Transformer, thence moving towards West then South upto the house of Yadav Niwas, thence moving towards South East upto the H.No. 1971 of Sh. Sukhdev, thence moving towards West upto the house which is connect to H.No.263 Dairy of Mahavir Bhadana, thence moving towards East upto the H.No. 1182, thence moving towards South upto B.N.B School thence moving towards West upto the shop of Rathi Cooler bala adjacent MCF

Tubewell, thence moving towards East South alongwith Air Force Station boundary wall upto boundary wall Bholeswar Mandir, thence moving towards West alongwith Air Force Station boundary upto house of Sh. Ishwar on the South of Udia Colony, thence moving towards West upto the Kabir Parmeshwar Chowk, thence moving towards South upto the Sanidev Mandir thence moving towards South West upto the Krishna Traders, thence moving towards South upto the bala ji mandir, thence moving towards Western South upto the Shiv Sakti Enterprises Sohna Pali Road, thence moving towards West on Sohna Pali road upto the where it intersect to the Eastern boundary/limit of MCF, thence moving towards adjoining to the boundary/limit of MCF towards East then North again on East then North to the Shree Ram Dharam Kanta Dabua Pali Road, thence moving towards East on Dabua Pali Road upto the Dabua Firni Mod, thence moving towards on Dabua pali road upto the Sakshi Dharmkanta, thence moving towards North East on Dabua Firni Road upto the Ganga Ram mandir, thence moving towards East on Dabua pali road, Dabua Colony starting point of this ward.

Ward No 10 :- Starting from 3 no. Pulia Dabua Pali road moving towards West upto the Jagdamba Stone Company thence moving towards South upto H.No. A-790 Joshi wali Gali Dabua Colony thence moving towards West on 33ft wide road upto Life Care Medical Store thence moving towards South upto Gulati Kirana Store on 33ft wide road thence moving towards West upto H.No. A1899, Dabua Colony thence moving towards South upto Ravi Book Depot thence moving towards West upto H.No. A1905 Dabua Colony thence moving towards South upto Mahavir Dairy thence moving towards East upto H.No. D-1182 Dabua Colony thence moving towards South upto B.N School, Dabua Colony thence moving towards West upto Rathi wale Tubewell thence moving towards West upto Sanjeev Kirana (Rathi Almirah) thence moving towards SouthEast upto Shiv Mandir, Dabua Colony thence moving towards West upto boundary wall of Dabua Air force Station thence moving towards South alongwith boundary wall of Dabua Air Force Station thence moving towards South on the boundary wall of Dabua Air Force Station thence moving towards South-East direction on the boundary wall of Dabua Air Force Station thence moving towards East on the boundary wall of Dabua Air Force Station thence moving towards North on the boundary wall of Dabua Air Force Station thence moving towards West on the boundary wall of Dabua Air Force Station thence moving towards North upto the main gate of Dabua Air Force Station thence moving towards East on 60ft Air Force Road upto the North turn of Air Force Road thence moving towards North on 60ft Air Force road upto Dabua Chowk thence moving towards North upto Wadhwa Bartan Bhandar on Post Office Road thence moving towards West upto Ma Shanti Clinic thence moving towards NorthWest upto the ATM of Axis Edge 33ft road thence moving towards East upto the Shram Kalyan Vibhag Centre Rakesh Khatana wali Gali thence moving towards South upto Fagna Chowk thence moving towards East upto Bhojpuri Awdhi Samaj Bhawan, Dabua Colony thence moving towards North upto the 3 no. pulia Dabua Pali Raod which is a starting point.

Ward No. 11 :- Starting point from Saran Chowk moving towards North on 200 ft. wide western road of Industrial area upto Ravidas Mandir, thence moving towards West on 27 ft. road upto Dayanand School, thence moving towards North upto 60ft wide Road T-Point, thence moving towards East upto Baba Deep Singh (Payali) Chowk, thence moving towards North upto 3 No. pulia, thence moving towards South-West upto the 17 no. Chungi Chowk, thence moving towards South-East alongwith 33 ft. road infront of Dr.K.K.Sharma upto H.No. 893, thence moving towards East side upto H.No. A-1211 of Aatma Ram Sharma, thence moving towards South on Police chowki road upto H.no. A-1391 (Pappu Welding workshop), thence moving towards East upto the Attendance point of MCF employees, thence moving towards South upto Shiv Mandir, thence moving towards East alongwith Lazervelly park upto the Attendance point of MCF employees, thence moving towards South upto the house of Shanti Devi (H.No.210), thence moving towards West upto the house of Daya Ram Gupta (H.No. D-25), thence moving towards South on post office road upto Dabua Chpowk, thence moving towards South adjoining 60 ft. road up to Kurukshetra School of Jawahar Colony, thence moving towards East upto the road of Saran School, thence moving towards North upto H.no. 1132 Jawahar colony adjoining Shiv Park, thence moving towards East upto the H.no. 1118 of Jawahar colony, thence moving towards South upto H.no.1002, thence moving towards East upto H.no. 979 of Jawahar colony, thence moving towards North upto the Bada Gurudwara, thence moving towards East upto the shop of Kale Bania situated at Gaunchhi Drain, thence moving towards North upto the Gaunchi Nallah Pulia, thence moving towards West upto the Shiv Mandir of Old Press Colony, thence moving towards South upto the Jatwani Electronics, thence moving towards North upto the Saran Chowk which is the starting point of this ward.

Ward No. 12 :- Starting point from Hardware chowk moving towards West upto the Baba Deep Singh Chowk thence moving towards North-West upto the 3no. Pulia H.No. 1, Nehru Colony situated at the corner of Dabua Pali Road thence moving towards West on Dabua Pali Road upto 17no. Chungi Chowk thence moving towards NorthWest upto Govt. School, Nawada thence moving towards North alongwith boundary wall of Govt. School Nawada upto Balmiki Basti thence moving towards North-East starting point of Sainik Colony upto the corner of St. Johns School, Sector dividing road between Sector-48 & Sector-49 thence moving towards North West on this road upto the T-point of Badkhal Pali Road thence moving towards North upto the Pulia Kumhar wali Gali Vill. Badkhal thence moving towards South-East on North boundary wall of NIFM through behind the Gurudwara upto H.No.8240, SGM Nagar thence moving towards East upto Master Auto Company thence moving towards South upto H.No. A-214 SGM

Nagar, thence moving towards East upto the H.No. MCF-3888 (Shiv Sakti Traders) SGM Nagar thence moving towards South-East upto the shop of Hanuman at Disposal Chowk thence moving towards SouthWest upto the Faizan Qureshi Halali Chicken shop on Sainik Colony Road, Sector dividing road between Sector-48 & Sector-49 thence moving towards South-East upto Masjid Chowk thence moving towards South-East on dividing road between Neighborhood No.-3D Block & Neighborhood No.-3F Block upto H.No. 3F-168, Bikaner Mistan Bhandar thence moving towards SouthWest on road between NH-3 D & 3E upto crossing of Neighborhood No. 2 & Neighborhood No.-3 thence moving towards South on the road passing in the center of Neighborhood No. 2 upto Govt. Girl School, Neighborhood No. 2 thence moving towards South upto the NorthWest corner of this School thence moving towards East upto Neighborhood No. 1 & 2 Chowk Bhawani Misthan Bhandar thence moving towards South upto the starting point Hardware Chowk.

Ward No. 13 :- Starting point from B.K moving towards East upto the Neelam Chowk thence moving towards North on Railway Road of Neighborhood No. 5 upto H.No. 132, Bhagat Singh Colony thence moving towards East upto H.No. 95 Bhagat Singh Colony & connecting to the Western edge of the Railway Track thence moving towards South on the Western edge of the Railway Track upto the Neelam Flyover thence moving towards West on the Southern edge of the Neelam Flyover upto the shop no. 19 of AC Nagar thence moving towards South on the Western edge of Nallah upto Shop No. 122, AC Nagar thence moving towards West upto the Balmiki Mandir AC Nagar thence moving towards South upto the rear boundary of Bangla Plot No. 7B/8B, Neelam Bata Road thence moving towards West upto the Eastern edge of Neelam Bata Road thence moving towards South upto intersection of under Bata Flyover on Bata Hardware Road thence moving towards West upto the Hardware Chowk thence moving towards North upto the Neighbourhood No. 1 & 2 Bhawani Misthan Bhandar thence moving towards West upto 2F Park thence moving towards North upto the Govt. Girls Sr. Secondary School, Neighborhood No. 2 thence moving towards North upto the H.No. 3D/22, Bigg Boss Saloon thence moving towards SouthEast upto the R.K Hospital, ESI Chowk thence moving towards North-East direction upto the Chinnibai Dharamshala thence moving towards SouthEast on K.L Mehta Road upto the B.K Chowk which is a starting point of this ward.

Ward No. 14 :- Starting point from Under Bata Flyover adjoining Railway line moving towards North upto the house of Chanderkesh situated at Krishna Colony, thence moving towards East-South upto house of Ved Prakash of Krishna colony, thence moving towards North-East on kachcha Rasta upto Chhatth Ghat located at Redison Blue Hotel road, thence moving towards East upto on the road located on the Redison Blue Hotel upto T-junction at Delhi-Mathura road thence moving towards North on Delhi-Mathura road upto corner of Regent Honda agency Sector-15A, thence moving towards East upto turning point of Ajrona Sabji mandi road, thence moving towards North-East upto Brijwasi sweet, thence moving towards North-West upto the shop Khemchand garg, thence moving towards North-East upto North-East corner of shopping center opposite booster of MCF, thence moving towards North upto the house no 1 of sector 15A, thence moving towards West upto the corner house no 14 of 15A, thence moving towards North upto house no 65 sector 15A near park, thence moving towards East adjoining to the tubewell upto the T-point of house no 85 sector 15A, thence moving towards West upto South west corner of house no 84 sector 15A, thence moving towards North along with Western boundry of house no 84 sector 15A, upto T point sector 15A at Lal bhadur shastri marg dividing between sector 15A and 16A, thence moving towards West on Lal bhadur shastri marg upto metro pillar no 758 on Delhi Mathura road, thence moving towards North upto Rajiv chowk old faridabad, thence moving towards West on pervesh marg upto corner of railway under pass, thence moving towards South on railway line upto the neelam flyover, thence moving towards West along southern edge of neelam flyover upto shop no 1 ankit plaza, thence moving towards South on western edge of A.C nagar nala upto A.C. nagar dispensary, thence moving towards West upto Amarnath School, thence moving towards South along with Eastern boundry wall of Bangla plot neelam bata road upto the Sulabhsocialaya, thence moving towards West on a street between bangle plot no 7 and 8 upto T point of neelam bata road, thence moving towards South on neelam bata road upto the crossing of bata flyover, thence moving towards East on bata flyover upto the railway crossing under bata flyover, which is a starting point of this ward.

Ward No. 15 :- Starting point from B.K Chowk moving towards North-West on K.L. Mehta Road via North side of the Chinnibai Dharamshala upto the Mehta Sweets on SGM Nagar Bandh Road thence moving towards North on Bandh Road upto the Patel Chowk thence moving towards South-East upto the Hanuman Mandir thence moving towards North-East on Samshan Ghat Road upto corner of Bhagwan Parshuram Park thence moving towards NorthWest on dividing road of Sector-21B & 21D upto the H.No. 737 of Sector-21B thence moving towards East on 60ft wide road external road of Sector-21B upto shop of Bajrang Property thence moving towards South-East on the road situated at North side of Gandhi Colony upto Shop No.E-28, Shree Balanji Home Appliance, Gandhi Colony thence moving towards South upto the H.No. 76B, New Colony, corner Bhatia Crane Wali Gali thence moving towards East on Bhatia Crane wali Gali upto the Railway Station Road on the corner of o/o JMJ Enterprises thence moving towards South on Railway Station Road upto the North-West corner of Railway Station parking thence moving towards East on the boundary wall railway parking upto the Western edge of railway track thence moving towards South on Western edge of railway track upto the H.No. 93 Bhagat Singh Colony thence moving towards

West on street of Bhagat Singh Colony upto the SouthWest corner of Centre Store of MCF thence moving towards South on Railway Road of NIT-5 (Sahid Bhagat Singh Marg) which connected to Neelam Chowk thence moving towards West on Neelam B.K Road upto B.K Chowk, which is a starting point of this ward.

Ward No. 16 :- Starting point from Mehta Sweet Shop, SGM Nagar, on Bandh Road moving towards North on 25ft Bandh Road upto shop of Dr. Bhatia SGM Nagar thence moving towards West in SGM Nagar upto shop of Mauji the Hatti thence moving towards South upto the H.No. 2833A, SGM Nagar at T-Point thence moving towards West upto the house of Rohit, SGM Nagar thence moving towards South upto the H.No. 1847/5, SGM Nagar thence moving towards West upto the T-Point at H.No. 1854, SGM Nagar thence moving towards North upto the GBL School thence moving towards West on 22ft Road upto the shop of Mohan Dairy thence moving towards North upto the Navjeevan Medical Store thence moving towards West upto the Noorani Masjid thence moving towards North upto the Mini Disposal of Sec48 thence moving towards West on Badkhal Pali Road upto the Delhi wali Masjid thence moving towards North on Badkhal Pali Road upto the main gate of Badkhal Village thence moving towards West in the Badkhal Village upto the Two Brothers Tailors thence moving towards North in the Badkhal Village upto the house of Bilal thence moving towards East upto the Sethi Marriage Garden, Badkhal Village thence moving towards West upto MCF Tubewell No. 6 of Badkhal Village thence moving towards South-West upto house of Heera Lal, Balmiki Basti, Badkhal Village thence moving towards South-East upto Aayan General Store, Badkhal Village thence moving towards East upto the Sharma Clinic, Badkhal Village thence moving towards South on the boundary wall of NIFM upto the Gurudwara of SGM Nagar thence moving towards East upto the Master Auto Component Workshop of SGM Nagar thence moving towards North upto the Deep Clinic thence moving towards East upto the shop of Lucky, SGM Nagar thence moving towards South upto the Tower wali Gali thence moving towards East upto the H.No. 3889 of Sh. Deewakar, SGM Nagar, thence moving towards South upto the MCF Disposal, Kalyanpuri thence moving towards SouthWest upto the Faizan Qureshi Halali Chicken shop on Sainik Colony Road, Sector dividing road between Sector-48 & Sector-49 thence moving towards East upto Masjid Chowk thence moving towards South-East on dividing road between Neighborhood No.-3D Block & Neighborhood No.-3F Block upto ESIC Chowk thence moving towards North-East upto the Chimmibai Dharamshala Chowk thence moving towards North-West upto the Mehta Sweet, SGM Nagar, which is starting point of ward no. 16.

Ward No. 17 :- Starting point from the SouthEast corner of St. Johns School on Sector dividing road of Sector-48 -49 moving towards West on the Southern boundary of Sainik Colony through Kaccha Rasta passing from hilly area upto Lucky Juice Corner on Nawada Dabua Road thence moving towards South upto NorthEast corner of Govt. School, Nawada thence moving towards West upto the house of Adv. Praveen Tyagi thence moving towards NorthWest upto Sakshi Dharamkanta thence moving towards upto Rajesh Dharamkanta thence moving towards West on Dabua Pali Road upto the T-junction of Badkhal Pali Road thence moving towards North-West on Badkhal Pali Road upto the shop Chaudhary Suraj Bhadana Building Material thence moving towards North-East upto Toolroom Engineering Company, Nawada thence moving towards West upto Ultimate Dharamkanta thence moving towards North-East upto the Scrap Godown at Badkhal-Pali Road, Bhankri moving towards North upto the Baba Madaar wale Mandir, Bhankri thence moving towards North-East on Kaccha Rasta in the Hilly area upto the Police Chowki of Sainik Colony thence moving towards North-West on Dabua Pali Road upto the Rajesh Nursery on the turning point of Gurugram Road thence moving towards North-West on Faridabad Gurugram Road upto the shop of Asif Biryani Bala Nr. Kabristan, Vill. Badkhal thence moving toward North-East on Kaccha Rasta in Hilly area upto the turning of Kaccha Rasta thence moving towards South on this Kaccha Rasta in front of Arif Earth Mover Workshop upto Village Badkhal Abadi thence moving towards North upto the shop of Ayus Khan thence moving towards North upto the Aakash Metal Shop thence moving towards East upto the Vidya Niketan School, Badkhal thence moving towards South-East upto Kumhar Wali Pulia, on Badkhal Pali Road thence moving towards South-West upto the NIFM & T-Point, Badkhal Pali Road, Near Sainik Colony, thence moving towards South-East upto starting point of this ward.

Ward No. 18 :- Starting point from the Scrap Godown at Badkhal -Pali Road, Bhankri moving towards North upto the Baba Madaar wale Mandir, Bhankri thence moving towards North-East on Kaccha Rasta in the Hilly area upto the Police Chowki of Sainik Colony thence moving towards North-West on Dabua Pali Road upto the Rajesh Nursery on the turning point of Gurugram Road thence moving towards North-West on Faridabad Gurugram Road upto the shop of Asif Biryani Bala Nr. Kabristan, Vill. Badkhal thence moving toward North-East on Kaccha Rasta in Hilly area upto the turning of Kaccha Rasta thence moving towards South on this Kaccha Rasta in front of Arif Earth Mover Workshop upto Village Badkhal Abadi thence moving towards North upto the shop of Ayus Khan thence moving towards North upto the Aakash Metal Shop thence moving towards North upto the house of Sh. Aziz, Vill. Badkhal thence moving towards East upto the Cool Comfort Air thence moving towards NorthWest upto Sharma Clinic, Badkhal Village thence moving towards West upto the house of Sh. Aseen thence moving towards NorthWest upto Badkhal Lake thence moving towards NorthEast upto Sethi Marriage Hall thence moving towards North-East upto Tubewell No. 6 of MCF thence moving towards SouthEast upto shop of Brother Tailor, Vill-Badkhal thence moving towards East upto main gate of Vill. Badkhal on Badkhal Pali Road thence moving towards North-East upto the Shiv Mandir, Vill-Ankheer thence moving towards North-West upto the Back side of jata dhaari mandir thence moving

towards North on Kaccha Rasta behind Delite Banquet Hall on 33ft road connecting to Badkhal Surajkund Road thence moving towards East at the junction at Surajkund Road thence moving towards North on Badkhal Surajkund Road upto the North-West corner of MVN School thence moving towards East on the Northern boundary wall of MVN School upto the Kaccha Rasta in the Hilly area, Arawali thence moving towards North upto the boundary of Green Field Colony thence moving towards West alongwith Green Field Colony boundary wall upto the North-East corner of Omex Height Colony thence moving towards North on Badkhal Surajkund Road upto the North-East corner of NHPC Colony, thence moving towards East alongwith Northern boundary wall of NHPC Colony upto the office of Desire Property on Gurukul Road thence moving towards North-East upto the house of Sh. Arun Sharma thence moving towards West upto the house of Sh. Kallu, Shiv Durga Vihar thence moving towards North-East upto the Singh Transport thence moving towards NorthWest upto the house of Sh. Pandey, Shiv Durga Vihar thence moving towards West upto the house of Sh. Ved Pal on Badkhal Surajkund Road thence moving towards North upto the Ibiza Township, Badkhal Surajkund Road thence moving towards West upto round about of Surajkund thence moving towards North on Delhi Pehlampur Road upto Haryana Delhi Border thence moving towards West then South on Delhi Haryana Border line upto the Crossing of Faridabad Gurugram Road near Police Chowki of Pali Stone Crusher Zone on the boundary/limit of MCF upto Crusher No. 75 thence moving towards East adjoining to the stone crusher zone boundary on the boundary/limit of MCF upto the Ultimate Dharamkanta thence moving towards starting point of this ward.

Ward No. 19 :- Starting point from shop of Dr. Rakesh Bhatia on Baandh Road SGM Nagar moving towards North on Baandh Road upto Patel Chowk thence moving towards East upto Hanuman Mandir, thence moving towards North-East upto corner of Maharana Pratap Park, thence moving towards North on Sector-21B & 21D dividing road upto H.No. 164 of Sector-21D, thence moving towards west upto the H.No. 157 of Sector-21D, thence moving towards North alongwith eastern Boundary wall of H. No G-76 Indira Enclave upto the North East Corner of this House, thence moving towards West on 30 feet wide Road of Indira Enclave through MCF booster up to the Labour Chowk at Badkhal-Ankheer Road, thence moving towards South on Badkhal Pali Road upto the Corner of Delhi Masjid, thence moving towards East on Internal Road of Sector 48 in front of Dools and Dolls School upto the corner of Minni disposal of MCF, thence moving towards South of Internal Road of Sector 48 upto the boosting of MCF, thence moving towards East on Road in front of Noorani Masjid up to the Nav Jeevan Medicasl Store, thence moving towards South on the street of SGM Nagar upto the Mohan Dairy at 25 Feet Road, thence moving towards East on 25 Feet Road up to the Corner of Guru G Tailor, thence moving towards South on Road in front of GVN School up to the H. No. 1854 SGM Nagar, thence moving towards East on street of SGM Nagar Street up to the H. No. 2831, thence moving towards East upto the H. No. 2179 of SGM Nagar, thence moving towards North up to the H. No. 2829, thence moving towards East on 25ft wide road upto Shop of Rakesh Bhatia, that is starting point of this ward.

Ward No. 20 :- Starting point from Ankheer Police Choki Chowk sector 21 C moving towards north east on sector road of sector 46 then sector 45 upto T-Junction of sector 45 & 46 thence moving towards north east on Kaccha Rasta on West of Sector-45 and North -West edge of the Budia Nallah upto the Railway track thence moving towards Western edge of the railway track upto the Railway underpass of the Green field Colony, thence moving towards West on the 100ft. road of Green Field Colony upto the T-Point of Gurukul road, thence moving towards West on Gurukul road upto Anangpur Chowk on Badkhal Suraj Kund Road, thence moving towards South on Badkhal Suraj Kund road upto the north east corner of Omex Height Colony, thence moving towards upto the SouthWest corner of Omex Height Colony thence, moving towards East southern boundary wall of Omex Height Colony upto the north west corner of boundary wall of Omax Height Colony upto eastern turn, thence moving towards east on Omax Height colony upto the south east corner then moving towards south west upto the boundary wall of Green Field Colony, thence moving towards south on Kachha Rasta up to the turning point of this Rasta, thence moving towards west on Kachha Rasta to the South east corner of MVN School at Badkhal Surajkund Road, Thence moving towards south west on Badkhal Suraj kund road upto the Pali road mod, thence moving towards south east on Badkhal Suraj Kund Road upto south west corner of Delite Edgeet Hall on Badkhal Suraj Kund Road, thence moving towards west on 33 feet road alongwith Boundary wall of Delite garden upto the south east corner of boundary wall, thence moving towards south east on Pahadi Kachha Rasta upto the backside of Jatadhari Mandir, thence moving towards east on Choudary Ram Kishan Road of Ankheer Village upto mod of Badkhal Ankheer village, thence moving towards south west on Badkhal Pali road upto Labour chowk thence moving towards east on 30 feet wide road of Indira Enclave in front of coporation booster upto north east corner of H.No. G-76 Indira Enclave, thence moving towards south alongwith eastern boundary wall of this house upto H.No. 157 of Sector-21D, thence moving towards east upto H.No. 164 in front of Sector dividing road of Sector 21B and Sector 21D, thence moving towards south upto the north east corner of Maharana Pratap Park, thence moving towards east on 60 feet wide road of sector 21 B upto shop of Bajrang Properties, thence moving towards south upto the Balag Home Appliances Shop No. E-28 at corner of Bhatia Crane wali gali in Gandhi colony, thence moving towards east on Bhatia Crane Wali Gali upto the H.No. 76-B New Colony. thence moving towards south on Railway Station road upto the office of JMC Enterprises, thence moving

towards east upto the corner of Railway Station Parking, thence moving towards North upto the turning under pass turning on Pravesh Marg Old Faridabad, thence moving towards East on Pravesh Marg upto the Rajeev Chowk at Delhi Mathura Road, thence moving towards North on Delhi Mathura road upto the Badkhal Flyover Mod, thence moving towards west on Badkhal Flyover upto Ankheer Police Choki Chowk sector 21C, Which is a starting point of this ward.

Ward No. 21 :- Starting from the Ankhir police chowki chowk moving towards North-East on 30 mtr. wide road upto the junction of Sector-45 & 46 dividing road thence moving towards NorthEast direction on Kaccha Rasta on the West of Sector-45 and North-West edge of the Budia Nallah upto the Railway track thence moving towards South on Eastern edge of the railway track upto the crossing of underpass of Vill. Mewla Maharajpur thence moving towards East through underpass upto the junction of which is connecting the Delhi Mathura Road thence moving towards Western edge of the Delhi Mathura Road upto the Badkhal flyover thence moving towards West upto Ankhir police chowki chowk which is a starting point of this ward.

Ward No. 22 :- Starting point from Anangpur Chowk moving towards North on Suraj Kund Road upto North West corner of NHPC Colony thence moving towards East along with the boundary of NHPC Colony passing through the open land upto Plot no. 12/6 on Gurukul Road thence moving towards North upto North West corner of Global School thence moving towards West upto house no. 63/2 Gurukul Industrial area thence moving towards North passing through kachha rasta upto the corner of Dhruv Dera thence moving towards West upto the corner of Satish house thence moving towards North upto the house of Raju thence moving towards North upto house no. 120 upto corner of the Subhash Colony thence moving towards West upto House No. G-2/32 thence moving towards North upto house no. 727 MCF/120 Shiv Durga Vihar thence moving towards West upto corner of house no. F-248 thence moving towards East upto shop no. 3 of Shiv Durga Vihar Block-D thence moving towards North upto Desi Sharab Theka near railway line thence moving towards North along with the Railway line upto the house of Ram Kumar thence moving towards East up to the corner of Kattan Pahadi Market, thence moving towards South upto gate no. 2 of 579B railway phatak, thence moving towards East upto Metro Pillor No 418, thence moving towards South along with the West corner of Delhi-Mathura Road upto South corner of Coir foam Company, thence moving towards West upto the first corner of underpass, thence moving towards North upto Daico Export at Sector-27B, thence moving towards West upto corner of shop no. B6, thence moving towards West upto corner of House no. 3550/C Sector-42, thence slightly moving towards South-West upto Anangpur Chowk moving towards North on Suraj Kund Road upto North-West which is starting point of this Ward.

Ward No. 23 :- Starting point from North-West corner of Nahar Singh Petrol Pump located on Surajkund Road moving towards East on the road going to Lakkarpur Village upto North-East corner of Nahar Singh Petrol Pump, thence moving towards South passing through house of Sh. Atte Bhati upto the boundary wall of Ibiza Tower, thence moving towards East on this boundary wall upto the North-East corner of Ibiza Colony, thence moving towards South on the boundary wall upto the North-West corner of the Ibiza Tower, thence moving towards East on the boundary wall of Ibiza Tower upto house of Bhim Bhadana Lakkarpur, thence moving towards North upto house of Mohi Narain Jha Lakkarpur, thence moving towards East upto house of Sukal Balraj Bhadana, thence moving towards South on the boundary wall of Ibiza Colony upto South-West corner of Lakkarpur boosting, thence moving towards East on the boundary wall of Lakewood City upto Radha Krishan Mandir, thence moving towards South on the boundary wall of Lakewood City upto the house of Ram Vilas Thakur, thence moving towards East upto the house & shop of Masterji, thence moving towards North upto the house of Chhote Bhadana, thence moving towards East upto house of Sh. Netrapal, thence on the same direction upto Mahavir Lohiya Laxmi Builder Shop, thence moving towards North upto the shop & house of Sh. Saroj Kumar, thence moving towards North upto the ATM of ICICI Edge and Patnayak Store, thence moving towards East upto the Lakkarpur Fatak, thence moving towards North on Eastern edge of Railway line upto plot no. 1 Block -A, Dayal Bagh Colony, thence moving towards West on the Delhi-Haryana border upto the land of Bhole Bhadana, thence moving towards West on boundary wall of Dayal Bagh Colony upto Surajkund International Cricket Academy, thence moving towards North upto the shop of Sh. Sanjeev Jain, thence moving towards West upto the flat of Nishant, thence moving towards West upto the temple of Eros Garden, thence moving towards North along with boundary wall of Eros Garden upto the Dayal Bagh Nallah, thence moving towards West on the border of Delhi State upto the corner of Country Club which is located on Surajkund-Prahaladpur Road, thence moving towards South on the same road upto the Surajkund round about, thence moving towards East on Surajkund Road, thence South direction on Surajkund road upto the starting point of this ward.

Ward No. 24 :- Starting from Deshraj Market at Delhi Mathura Road on Delhi-Haryana Reveue boundary, thence moving towards South on Delhi-Mathura road up to the Mod of Budhia Nallah, thence moving towards East along with Budhia Nallah up to Old Bridge of Old Sher Shah Suri road, thence moving towards North on Old Sher Shah Suri road up to the North corner of N.T.P.C. colony, thence moving towards East on North boundary wall of N.T.P.C. colony up to the T-junction at Bye Pass road, thence moving towards North on Bye Pass road up to the junction at Old Palla Pul, thence moving towards East on Palla-Seatapur road up to the Y junction of Palla-Seatapur and Palla-Tilpat road, thence moving towards North-East on Seatapur road up to the junction of Seatapur road and

Bandh road, thence moving towards North-West on Bandh road up to the new Bridge on Agra canal near Saraswati colony, thence moving towards North on road along with Agra canal up to the MCD toll, thence moving towards South-West along with revenue of Haryana & Delhi upto Shamshan Ghat sector-37, thence moving towards North-West on Delhi-Haryana border up to Deshraj Market at Delhi Mathura Road, which is the starting point of this Ward.

Ward No. 25 :- Starting point from the junction of Baandh Road & Meethapur Palla Road situated in the east bank of Agra Canal moving towards upto the Municipal Corporation, Delhi Toll, thence moving towards east on Delhi Haryana Boarder upto the Durga Mandir, Durga Builder Colony thence moving towards north on Delhi Haryana Boarder line upto the Bansal Property, thence moving towards east on Delhi Haryana Boarder upto the house of Jai Prakash, Om Enclave, thence moving towards north on Delhi Haryana Boarder upto the house of Sh. Hirdya Narain, thence moving towards north-east on Delhi Haryana Boarder upto the Om RS Building Material Supplier, thence moving towards south-east on Delhi Agwanpur Road upto the house of Sh. Jagat Singh, Om Enclave Chowk, thence moving towards west upto the Maa Vaisno Devi Tent House, Om Enclave, thence moving towards south upto the internal road of Durga Builder Colony, thence moving towards east upto the back side of Om Enclave (DPS colony), thence moving towards south-east on Agwan Pur Firni road upto Ambedkar Chowk, thence moving towards south-east on Vinay Nagar Road upto Arvind Bike Point in front of Crimination Ground of Agwanpur, thence moving towards west upto the Believer Eastern Church, Ganga Ram Colony, thence moving towards south upto the Yadav Niwas, H.No. 81, Surya Vihar Part-II, thence moving towards south upto Sh. Ganesh Fabrication & Workshop, thence moving towards east up to the house of Sh. Dinesh Rastogi, thence moving towards south upto the house of Sh. Dharmender Mandal, thence moving towards east upto the house of Sh. Dilip, thence moving towards south upto Sweets shop of Babu Mahraj, thence moving towards east on road of Surya Vihar upto house of Deepak Acharya, thence moving towards south up to house of Prem Singh, thence moving towards west upto the house of Shayam Lal, thence moving towards north up to house of Babu Ravi, Surya Vihar, thence moving towards north-west upto the house of Yogender/Arogya Clinic, Surya Vihar, thence moving towards south-west on revenue boundary of Vill. Tilpat upto house of Baba Ram Kewal/Sushil Building Material Supplier, thence moving towards south-west passing through open field upto the house of Sh. Devender Kumar, Shiv Colony, thence moving towards north-west on Baandh Road upto the junction of Baandh Road & Meethapur Palla Road situated in the east bank of Agra Canal which is starting point of this ward.

Ward No. 26 :- Starting from Ambedkar Chowk on Agawanpur Basantpur chowk thence moving towards upto Vinay Nagar Chowk thence moving towards upto 30 foot road toward East upto Shree Balaji Sweets & Catters upto thence moving towards North upto Hanni dairy & Bakery thence moving towards East upto the boundary wall of Tilpat Shootine range thence moving towards East-North alongwith the Pushta road upto Naina Devi Mandir thence moving towards North-West upto shop of Khatu Pansari thence moving towards North upto Anand Jewellers thence moving towards East passing Shiv Enclave upto R.S. Public School thence moving towards North passing from street No.9 upto Sharma Power Solution thence moving towards West upto Krishna MedicalStore (MainPalla Basantpur road) thence moving towards North in the Panchsheel colony gali No.1 upto Shyam Vatika thence moving towards West upto Delhi Border thence moving towards South-West upto alongwith the Adenberg Society part-II upto shop of the Anil Mishra thence moving towards South-West upto Gupta ji General store thence moving towards West upto Maa Vaisno Tent Houst thence moving towards South upto the point of Durga builder thence moving towards East upto corner of DPS colony thence moving towards East alongwith the firni of Village Agawanpur thence moving towards South-East corner Ambeskar Chowk, which is the starting point of this Ward.

Ward No. 27 :- Starting point from Baandh Road where intersect the Haryana UP Boarder revenue boundary of Vill. Agwanpur moving towards North-West upto the Bajrang Chowk thence moving towards North-West on the 33ft wide Chungi Road upto Khatu Shyam Pansari Shop, Ismailpur thence moving towards North-East on Firni Road of Vill- Ismailpur upto the Anand Jewellers thence moving towards East upto the R.S Public School thence moving towards North upto the Sharma Power Solution shop thence moving towards West upto the Krishna Medical Store on Palla Ismailpur Road thence moving towards North on Palla Ismailpur Road upto the Sachin Tent House thence moving towards West on North-West boundary of Panchsheel Colony which is located at border line of Delhi & Haryana State thence moving towards North-East on the Delhi Haryana Border Line upto the Delhi, UP & Haryana Border which is moving towards South upto the starting point of this ward.

Ward No. 28 :- Starting point from ABC traders located on Tilpat- Mawai Road boundary wall of Tilpat Shooting range, thence moving towards North upto the workshop of Jawahar Lal adjoining to this boundary wall, thence moving towards West upto the house of Bijender Singh Hanumant Colony part-I, thence moving towards North upto house of Munsi Harkesh Colony, thence moving towards west upto Pawan General Store, thence moving towards North upto the house of Ashok Kumar Verma Harkesh Colony, thence moving towards North-West on the revenue boundary of Village Tilpat upto OM print shop, thence moving towards North-East alongwith revenue boundary of Village Tilpat upto the Playground of Diksha public School, thence moving towards South-East upto 2nd house of Gali no 9, thence moving towards North upto shop D-66 Surya Vihar phase-II, thence moving towards West upto House of Amarpal situated in Gali no. 8, thence moving towards North upto the house of Keshav Goel, thence

moving towards West upto the last point of Gali No. 6 of Surya Vihar-2, thence moving towards North upto Believer Eastern church Agwanpur village, thence moving towards East upto Swargdham Shamshanghat Agwanpur, thence moving towards South-East upto Vinay Nagar Chowk, thence moving towards East upto Shop of Mahender Shah on 30 ft wide road, thence moving towards North upto the shop of Shakeel, thence moving towards East upto the boundary wall of Tilpat Shooting Range, thence moving towards North on the Boundary wall of Tilpat Shooting Range upto Bajrang Chowk Ajay Nagar, thence moving towards South-East on Dadasia Road adjoining to the Tilpat shooting range Bounday wall upto Dadasia Mod, thence moving towards South-west on Boundary wall of Tilpat shooting range adjoining to Dadasia road upto Boundary wall of tilpat shooting range, thence moving towards South then West then North on the Boundary wall of Tilpat Shooting Range upto ABC traders which is starting point of this ward.

Ward No. 29 :- Starting point from Crimination Ground, Mewla Maharajpur on the Delhi Mathura road moving towards east upto Ramswaroop T-Station thence moving towards north upto plot no. 5, block-5, Spring Field Colony thence moving towards east on Bangal shooting road upto Verkha enterprises on the road of old Sersah Road upto Verkha Enterprises (Bangal Shooting Chowk) thence moving towards north upto the North West corner of Sector-30 near (Community Center) thence moving towards east upto the MCF, Tubewell on Bye pass road thence moving towards north upto the Aazad Complex, thence moving towards east on internal road connecting to old Canal Bridge upto corner of the Gurgaon Canal, thence moving to ward south on Eastern edge of Agra Canal upto rasta upto house of Shri Jaiparkash at Dheeraj Nagar, thence moving towards East on street of Dheeraj Nagar upto house of Sh. Chander parkash thence moving towards north upto the shop of Pawan Chaudhary, Dheeraj Nagar thence moving towards east upto the gali no. 2 house of Sh. Piyush Singh Dheeraj Nagar, thence moving towards north-west upto the Sushil Water Plant, thence moving towards north-west upto the office of Tanuj Baisla, Near. Mega Mart Shopping Center Dheeraj Nagar, thence moving towards east upto the house of Sh Babulal Dheeraj Nagar at boundary wall of Shooting Range Tilpat, thence moving towards north on boundary wall of Tilpat Shooting Range up to Dungar Sharma shop At Hanumant Colony, thence moving towards west upto the corner of farm of Daksh Pandit, Hanumant Colony Tilpat, thence moving towards north upto the corner of house of Ajay Yadav, Hanumant Colony, thence moving towards west on the Harkesh Nagar Ashram Gali upto the shop of Shyam, Tilpat, thence moving towards North-west upto the House of Vinod, Hanuman Mandir wali Gali Harkesh Nagar, thence moving towards North upto the house of Wazir Singh, thence moving towards West upto the house of Joginder Pandit, thence moving towards North upto the shop of Chanderpall Singh, thence moving towards North-East on the road which is connecting to Palla-Tilpat road upto Amarchand Market Chhajjan Nagar, thence moving towards North-West on Palla-Tilpat road upto the shop of Surrender, thence moving towards North East on street of Chhajjan Nagar upto V.K. International School at Nallah, thence moving towards North-west on the junction of Palla-Sehatpur road and Bandh road, thence moving towards South-West upto wine shop at Y-junction of Palla-Sehatpur and Palla-Tilpat road, thence moving towards West upto Y-junction of Bye pass and Palla pul, thence moving towards South on Bye pass road upto Northern corner of NTPC colony, thence moving towards West upto Western corner of NTPC colony, thence moving towards South upto bridge of Budia Nallah, Rajeev Nagar, thence moving towards North-west, then West on the edge of Budhia Nallah upto the T-junction of NHPC Chowk at Delhi-Mathura Road, thence moving towards South on the edge of Delhi-Mathur Road upto the corner of the Crimination Ground, Mewla Maharajpur which is the starting point of this ward.

Ward No. 30 :- Starting from Encon factory Delhi Mathura Road thence moving towards North-East upto Shri Silk creative printing work plot no.7 sector-31 thence moving towards North upto General Rubber factory thence moving towards East upto Chaudhary Mahipal Complex thence moving towards North upto house no 739, Sector-30 thence moving towards East upto bypass road thence moving towards alongwith bypass and turning upto house of Dinesh Verma, Shramik Vihar thence moving towards East- South upto Aatri Quarters Shramik Vihar thence moving towards across the Agra & Gurugram Canal upto service road Agra Canal thence moving towards South upto Birpal Krishi Farm thence moving towards East upto house of Ravikant house no 46 Titu colony thence moving towards South upto house of Baidhnath house no.23, Titu colony thence moving towards East upto Apna Medical Store on Mawai Tilpat road thence moving towards South- West upto shop of Mahesh Chand Sharma, Titu Colony thence moving towards East upto shop of Bhagat Singhal, Sai nagar thence moving towards South- East upto to house of Praveen Kumar Sharma, Sai Nagar thence moving towards South-East between revenue boundary of Village Mawai & Tilpat upto Dharmender Bhadana plot thence moving towards South- West alongwith MCF land and behind shamshan ghat of village Mawai upto Ashok Hardware Shop, Mawai thence moving towards South upto Alpha Convent School thence moving towards West upto Raman Mandit shop, Mawai thence moving towards South-West upto House of Bijjan, Mawai thence moving towards South upto Lalit General Store, Mawai thence slightly moving towards West then turn South upto Irrigation Canal thence moving towards East upto Bhupesh Pandit industrial shed thence moving towards South cross Irrigation Canal upto outer peri pheri road thence moving towards West upto Badkhal Chowk Delhi Mathura Road thence moving towards North upto Encon factory Delhi Mathura Road which is starting point of this Ward.

Ward No. 31 :- Starting from Munsu Farm House at Mata Amritamayi Marg (Master road) Sector-89 moving towards South-East upto North-West corner of Police Line (Qtrs. T-2, 45-48), thence moving towards North-East upto M/s Machine Tools Plot No. 129 at Jeevan Nagar, thence moving towards East upto Musketer company, thence moving towards North-East upto Shiv Powder Coating Company, thence moving towards South upto Nirmal Polymer Pvt. Ltd, thence moving towards East upto Radha Rani Building Material, thence moving towards South upto Sai Card Home Pvt. Ltd., thence moving towards South-East upto rear side of the house of Ch. Jagan Nagar, thence moving towards South upto house of Bacchu Lal Prasad, thence moving towards East upto house of Ram Pravesh, thence moving towards South upto house of Raju, thence moving towards West up to the house of Nand Lal, thence moving towards South upto house of Kamini Devi situated on Kheri road, thence moving towards West up to the house of Manoj situated on Kheri road, thence moving towards South up to the house of Rajesh Yadav, thence moving towards East on Old Kheri road up to the house of Nasiman, thence moving towards South upto shop of Rinki fashion n Butique and Beauty Parlour, thence moving towards West upto Luminous Power Store, thence moving towards South upto Tube well No. 1 Dairy Scheme of MCF, thence moving towards South-East along with Kachha Dagra Kheri Road upto up to T-point on back side of RPS Society, thence moving towards North between Amolik Society & RPS Apartment upto Kheri Road, thence moving towards East upto Barfi Chowk (TDI-I Society main gate), thence moving towards North upto Delhi Scholars International School Sector-88, thence moving towards West on Sector road up to the turning point of Tika colony kachcha Rasta via Doon Public School, thence moving towards North on Katcha Rasta upto corner of Tika colony, thence moving towards North through under construction STP of HUDA on boundary/limit of MCF upto the field of Pritam Singh S/o Shri Suraj Singh thence moving towards West along with Tilpat Air Force Range boundary wall upto Girdhwar Enclave, thence moving towards West upto Tanuj Baisla Property Dealer Dheeraj Nagar, thence moving towards South-East upto water plant of Sushil Baisla, Dheeraj Nagar, thence moving towards South-East upto house of Piyush Singh, thence moving towards West upto shop of Pawan Chaudhary, thence moving towards South upto house of Dinesh Kaushal, thence moving towards East upto rear side of house of Deshraj S/o Laxman Prasad, thence moving towards East upto Sai Bikaner Sweet House, thence moving towards North-West upto Parmod General Store, thence moving towards East upto Airtel Mobile Tower No. 22022 Mawai Sai Nagar, thence moving towards South-East upto office of Dharmendra Bhadana, thence moving towards North-West along with Canal of Irrigation up to Ashok Hardware Electrical shop, thence moving towards South upto Alfa School, thence moving towards West upto house of Raman Pandit, thence moving towards South upto Mawai Holi Chowk (Mawai Barat Ghar), thence moving towards West-South upto Lalit Farm, thence moving towards East upto Chaudhary Bhopal Farm, thence moving towards South on the rear side of Sai Mandir, thence moving towards Munsu Farm House at Mata Amritamayi Marg (Master road) Sector-89 which is the starting point of this Ward.

Ward No. 32 :- Starting point from on the Eastern edge of Agra canal at the Mod of Raasta connecting to Padam Nagar, thence moving towards North on eastern edge of Agra Canal at the crossing of Kheri Pull, Nr. Police Chowki thence moving towards East upto turn at Wazirpur Road, Nr. Chaudhary Sweets thence moving towards North-East direction on Wazirpur Road upto entrance of Police Line Colony thence moving towards North-West upto the corner of boundary wall of Police Line thence moving towards North-East on the boundary wall of Police Line upto the North-East corner of Police Line Colony thence moving towards North-West upto North-West corner of the Police Line Colony thence moving towards North-East direction upto the corner of M/s Machine Tools, Plot No. 129, Jeevan Nagar thence moving towards East upto the Musketeer, Plot No. 1 Jeevan Nagar thence moving towards North-East upto the Shiv Powder Coating, Plot No. 4, Jeevan Nagar, thence moving towards South upto the Nirmal Polymers Pvt. Ltd. on Wazirpur Road thence moving towards East on Wazirpur Road upto Radha Rani Building Material Supplier thence moving towards South on Pucca Road upto the Sai Card Home Pvt. Ltd. Workshop at internal road in Bharat Colony thence moving towards South-East on revenue boundary of Faridabad upto the house of Chaudhary Jagan Nagar thence moving towards SouthWest upto the house of Bachhu Lal Prasad thence moving towards South-East upto the house of Sh. Ram Pravesh thence moving towards SouthWest upto the house of Sh. Raju thence moving towards North-West upto the house of Nand Lal thence moving towards South upto the house of Smt. Kamini thence moving towards West upto the House of Sh. Manoj, Bharat Colony thence moving towards South upto the house of Sh. Rajesh Yadav, Vikas Nagar thence moving towards West through open space and upto the House of Mrs. Nasiman thence moving towards South upto the Rinky Fashion Beauty Parlour on Old Kheri Road thence moving towards on Old Kheri Road upto the Luminous Power Store thence moving towards South upto the Tubewell No. 1 of Baselwa Dairy Scheme on Kheri Road thence moving towards SouthEast on Kheri Road upto the SouthWest corner of SRS Pearl Society thence moving towards South on the Eastern boundary wall of SRS Pearl Society upto the South-West corner of SRS Pearls Society thence moving towards West alongwith boundary wall SRS Pearls Society through a Kachcha Rasta upto the North-East corner of L.R Food Ltd. thence moving towards North upto the Satya Food Product thence moving towards West upto the corner of the House of Islam, Indira Complex thence moving towards North upto the house of Sh. Amruddin thence moving towards West on the Indira Complex Gali upto the across Gurugram Canal & Agra Canal which is a starting point of this ward.

Ward No. 33 :- Starting point from Pooja Furniture located at T-Junction of Sector dividing road between Sector-28 & 19 moving towards South upto the Bhagwana Sweet, thence moving towards South-East on Main Bazaar road upto the Ashok Pan Bhandar, Nr. Anaz Mandi, Old Faridabad thence moving towards East on Anaz Mandi Road upto Jai Maa Studio, Saiyadwara thence moving towards North-East upto the Cloth Merchant, Ashok Kumar Arya thence moving towards East upto the Balmiki Park thence moving towards SouthWest upto the Sani Dev Mandir, Welding Market thence moving towards West upto the Batasa Godown thence moving towards South-West upto N.R Engineering Works 101/4 Bar Mohalla thence moving towards South-West Sani Dev Mandir, Bar Mohalla thence moving towards West upto the Human Health care Diagnostics thence moving towards South upto the Mohan Ki Bhush ki Taal on sector dividing road between Sector-17 & 18 thence moving towards East upto the T-Junction of Sector-17 & 18 at Bypass Road thence moving towards South on Bye-pass road upto the Pem Nagar Masjid, thence moving towards East upto the Edge of Gurugram Canal, thence moving towards South on Eastern Edge of Gurugram Canal up to the Edge of Gurugram Canal Bridge, thence moving towards East across the Bridges on Gurugram Canal & Agra Canal up to eastern edge of Agra Canal, thence moving towards North on Eastern Edge of Agra Canal upto the Kheri Pull, thence moving towards East on Kheri Road upto the Chaudhary Sweets at Wazeer Pur Mod, thence moving towards North-East direction on Wazirpur Road upto entrance of Police Line Colony thence moving towards North-West upto the corner of boundary wall of Police Line thence moving towards North-East on the boundary wall of Police Line upto the North-East corner of Police Line Colony thence moving towards North –West upto North-East corner of the Police Line Colony thence moving towards North-West on Kaccha Rasta, Karuna Nagar upto the Maa Amritamai Marg, Master Road, Nr. Munsli Farm thence moving towards West on Master road and across the Gurugram Canal & Agra Canal, across the Bypass Road on the Sector dividing road of Sector-29 & 18, Bhoor Baselwa Colony upto the starting point of ward no. 33.

Ward No. 34 :- Starting from Bikaner Misthan Bhandar thence moving towards East upto Sector-19 corner thence moving towards South crossing of Bhagwana Sweets shop upto Gopal Mittal Shop (Kanhaiya Haar wala) thence moving towards East crossing Mahavir Mandir upto house of Pawan Khanna (Sayyad Wara) thence moving towards North upto Aryan Cloths shop thence moving towards East upto Balmiki Park thence moving towards South crossing Saini Chowk (Labour Chowk) upto Shani Mandir (Bhim Basti) thence moving towards West upto Batase wali godown thence moving towards South-West upto NR Engineering works 101/4 Barh Mohalla thence moving towards South –West Shani Dev Mandir (Barh Mohalla) thence moving towards West upto house of Narender Dutt (Barh Mohalla) thence moving towards South upto Nipur Ultrasound Medical Centre thence moving towards East alongwith Ambedkar Marg upto T Point of Sector- 16, 17 & 18 thence moving towards South upto house no. 1699 sector-16 thence moving towards West upto Sun Flag Road thence moving towards North upto Lajpat Chowk thence moving towards West upto PC Pharmacy Chowk (Daultabad) thence moving towards South alongwith house of Veer Singh S/o Har Kishan, Jat Mohalla, Daultabad upto rear of House No. 238, Sector-16A thence moving towards West side of house no. 238, sector-16A thence moving towards North from house no. 238 sector-16A alongwith house no. 224, sector-16A upto house no. 211 sector-11 thence moving towards thence moving towards East upto house no. 186, sector-16A thence moving towards North upto house no. 175 sector-16A thence moving towards South upto Karamchari Bhavishya Nidhi Sangthan office sector-16A North upto Ambedkar Marg thence moving towards West upto Rajiv Park Sector-19 Delhi Mathura Road thence moving towards North upto Bikaner Misthan Bhandar, which is the starting point of this Ward.

Ward No. 35 :- Starting point from North-East corner of H.No. 1394 of Sector 17 on dividing road between Sector-16 & 17, moving towards South on Sector dividing road of Sector-16-17 & 14-15 upto T-point of Sector dividing road of Sector-12 & 15, thence moving towards West on sector dividing road between 15A and Sector-12 upto the T-Junction at Delhi Mathura Road on the SouthWest corner of Escorts Factory thence moving towards North on Delhi Mathura Road upto the Regent Honda, Scooter Show Room Sector -15A, thence moving towards East upto the turning point of Ajronda Sabji mandi road, thence moving towards North-East upto Brijwasi sweet near Anjronda Sabji Mandi, thence moving towards North-West upto the shop Khemchand garg, thence moving towards North-East upto North-East corner of shopping center opposite booster of MCF, thence moving towards North upto the house no 1 of sector 15A, thence moving towards West upto the corner house no 14 of 15A, thence moving towards North upto house no 65 sector 15A near park, thence moving towards East adjoining to the tubewell upto the T-point of house no 85 sector 15A, thence moving towards West upto South west corner of house no 84 sector 15A, thence moving towards North along with Western boundry of house no 84 sector 15A, upto T-point sector 15A at Lal bhadur shastri marg dividing between sector 15A and 16A, thence moving towards West on Lal bhadur shastri marg upto metro pillar no 758 on Delhi Mathura road, thence moving towards North upto Rajiv chowk old faridabad, thence moving towards East on sector dividing road between Sector-16A & Sector-19 upto the North East corner of H.No. 174, Sector-16A thence moving towards South upto the South-East corner of H.No. 174, Sector-16A thence moving towards West upto the H.No. 175, Sector-16A thence moving towards South upto the H.No. 185 Sector-16A thence moving towards West upto the H.No. 211, Sector-16A thence moving towards South upto H.No. 238, Sector-16A thence moving towards East upto the Sunil Building Material Supplier, Vill. Daultabad thence moving towards North

on street of Vill. Daultabad upto the Max Medical Store, Daultabad situated on Sector dividing road between Sector-16A & 19 thence moving towards East upto the Lala Lajpat Rai Chowk which is a junction of 16, 16A, 19 & 18 thence moving towards South upto the T-junction of the road South side of Moti Mahal Restaurant thence moving towards East from T-point of this road upto the starting point of this ward.

Ward No. 36 :- Starting Point from (Bharti Gupta Eye Care Centre) at T-junction of sector 12-14 & 15, thence moving towards North on sector dividing road of Sector-16-17 upto T-point of sector-17-18, thence moving towards East on sector dividing road of sector 17-18 upto bypass road, thence moving towards South upto disposal of Storm water of MCF Sector-17, thence moving towards East upto crossing the Jhuggi of By-pass upto the Western edge of Gurugram Canal, thence moving towards South on Western edge of Gurugram canal upto the corner of bridge on Gurugram canal and Agra canal, thence moving towards East on bridge of Gurugram canal and Agra canal up to the Eastern edge of Agra canal, thence moving towards North-West up to the Mod of Raasta connecting to Padam Nagar, thence moving towards Bhus ki Taal road upto Masjid Padam Nagar, thence moving towards slightly South and moving towards East upto Satya Food Product Shop, thence moving towards South upto L.R.Food Pvt. Ltd. (Bread Company) thence moving towards East upto boundary wall of Pearl Height Society, thence moving towards North upto Kachha Khedi Road (Shri Siddheshwar Maharaj Mandir), thence moving towards South-East on Katcha Kheri road upto the junction at sector dividing road of sector-87-88, thence moving towards on sector dividing road of sector 85-86 up to the DPS school Chowk at junction of sector 79-80-81 & 82, thence moving towards West on of sector dividing road of sector 80-81 and across the Agra Canal & Gurugram Canal upto (Bharti Gupta Eye Care Centre) at T-junction of sector 12-14 & 15, which is the starting point of this Ward.

Ward No. 37 :- Starting from the Junction of old Kheri Road-Sector dividing road of sector-87-88, moving towards East- South upto the Southern boundary wall of RPS Society, thence moving towards North East upto CJC unit of Green House, RPS, thence moving towards North upto Vardan Realtors, thence moving towards East- South upto sector dividing road of sector-88-89, thence moving towards North upto outer peri pheri road, thence moving towards West upto Near main gate of Village Badshahpur village, thence moving towards North upto Palwali Sewer Plant, thence moving towards North upto Hardyal tubewell and Gullu Farm, thence moving towards East upto Gullu Farm boundary wall, thence slightly moving towards North upto Ojha plot boundary wall, thence moving towards East end point of Ojha plot boundary wall, thence moving towards North upto Devender plot, thence moving towards East upto dividing road of village Badshahpur and Tikawali, thence moving towards North-East revenue boundary of village Tikawali, Badshahpur, Bhupani, Nachauli, Faridpur upto Faridabad to Tigaon road, thence moving towards North- West upto the Govt. School of village Faridpur, thence moving towards North on outer peri pheri road upto Vishnu Garden, thence moving towards West upto Old Kheri Bhatola road, thence moving towards South- West on Old Kheri Bhatola road upto sector dividing road 82 & 83, thence moving towards South West upto Chandila chowk, thence moving towards South upto junction of Sector- 76,77,78 & 79, thence moving towards West upto the Village Badoli Sr. Sec.School, (Sector-75), thence moving towards South- West upto Badoli old pul, thence moving towards North on road alongwith Agra Canal upto BPTP Chowk sector road of 80 & 81, thence moving towards East- South upto DPS Chowk, thence moving towards North on sector dividing 87-88 road upto the Kaccha Kheri road junction, which is the starting point of this ward boundary.

Ward No. 38 :- Starting point from BPTP Chowk at Bypass road moving towards East upto bridge of Agra canal, thence moving towards South-Eastern edge of Agra canal up to Badauli Pull, thence moving towards West upto the BPTP chowk Bypass Road, thence moving towards West on Badauli Pull upto the BPTP chowk Bypass road, thence moving towards South upto the T-Junction of Sector-8 & 9, thence moving towards West on dividing road of Sector-6,7,8 & Sector-9,10 & 11 upto the YMCA Chowk, thence moving towards South on Delhi-Mathura Road upto the corner of Mujjesar Fatak road near Triumph Hyundai Car Showroom, thence moving towards West on Mujjesar Fatak road upto the Western edge of the Railway Track, thence moving towards North on Western edge of the Railway Track upto the house of Chander Kesh Krishna Colony, thence moving towards North-East on kachcha Rasta upto the Chhatt Ghat located at Redisson Blue Hotel road, thence moving towards East on the road located on the Redisson Blue Hotel upto T-junction at Delhi-Mathura road, thence moving towards North on Delhi-Mathura road upto the turn of Sector dividing road of Sector 12 and 15A, thence moving towards East on sector dividing road of sector 12 and 15A up to BPTP Chowk at Bye pass road which is the starting point of this ward.

Ward No. 39 :- Starting from Y.M.C.A. Chowk situated at Delhi-Mathura road moving towards East alongwith E.S.I. Hospital upto the T-junction of Bypass road, thence moving towards East crossing over the Agra Canal and Gurgaon Canal through Badouli bridge upto the Eastern edge of Agra canal, thence moving towards South alongwith Eastern edge of Gurgaon Canal upto the turning point of Gurgaon canal, thence moving towards South-Western side on the Southern edge of Gurgaon canal upto the T-junction of Delhi-Mathura road, thence moving towards North upto the corner of Y.M.C.A. chowk, which is the starting point of this ward.

Ward No. 40 :- Starting point from North-Western corner of Agra canal Bridge situated at Ballabgarh-Tigaon road moving towards West on Ballabgarh-Tigaon road across the canal upto the Domino's Pizza shop situated at the corner of Bohra public school road, thence moving towards North alongwith Bohra public school road upto Alfa mens saloon, thence moving towards East upto Maa Durga jewellers, thence moving towards North-Eastern side on 33 ft. road upto Pipal chowk at 100 ft. wide road of Sector-3, thence moving towards East on petrol pump road of Sector-3 upto Om Bhojnalya situated at Southern edge of Bridge on Gurgaon canal, thence moving towards North-Eastern side alongwith Southern edge of Gurugaon canal upto the T-point of road at Eastern edge of Gurugaon canal, thence moving towards South on road at Eastern edge of Agra canal upto North-Western corner of Agra canal Bridge situated at Ballabgarh-Tigaon road, which is the starting point of this ward.

Ward No. 41 :- Starting from Agarsain Police Chowki Ghanta Ghar Chowk Ballabgarh moving towards South-East on Milk Plant road upto Amba Medical Store (HUDA Chowk), thence moving towards South upto Hemant Enterprises at Mohna road, thence moving towards North-West on Mohna Road upto Delhi Juice Corner, thence moving towards South-West upto ATM of Indicash near Pulia on Nalah, thence moving towards North- West alongwith Nalah upto back side of Aakash Cinema on Nalah, thence moving towards North-East upto Edge of Bank of India on Mohna Road, thence moving towards North- West alongwith City park Mohna Road upto Fountain Chowk, thence moving towards West on Ballabgarh Civil Hospital road upto Delhi-Mathura road at Metro Parking corner, thence moving towards North on Delhi-Mathura road upto South side of Gurugram Canal at Delhi-Mathura road, thence moving towards North- East on the road alongwith Gurugram Canal upto the Om Bhojnalya situated on corner of bridge of Gurugram Canal, thence moving towards South on sector road on the west side of sector-3 upto C.R. Plaza in front of Jaat Bhawan, thence moving towards West upto Stationery shop of Deepak Saini situated at 33 ft. wide road, thence moving towards North-East on 33 ft. wide road upto house of Moti Pandit, thence moving towards West upto Hanuman Chowk at Bohra Public School road, thence moving towards West on Bohra public School road upto Domino's Pizza shop at Tigaon road, thence moving towards North-East on Ballabgarh-Tigaon road upto the Mod of Sihi Gate road, thence moving towards South-West on Sihi Gate Road upto Agarsain Police Chowki Ghanta Ghar Chowk Ballabgarh, which is starting point of this Ward.

Ward No. 42 :- Starting point from Junction of Tigaon road and Sihi gate road near R.K.Tower moving towards south west on Sihi gate road upto Agarsain Police Chowki at Ghantaghar Chowk, thence moving towards South East on milk plant road upto Amba Medical Store at HUDA chowk, thence moving towards south upto Hemant Enterprises, Mohna Road, thence moving towards South East on Mohana Road upto the Red light at Bye-pass, thence moving towards north on By-pass road upto disposal chowk of sector 3 at Bye-pass, thence moving towards south west on Ballabgarh Tigaon road upto Junction of Tigaon road and Sihi gate Road near RK Tower, which is a starting point of this ward.

Ward No. 43 :- Starting point from National Trading shop on Delhi-Mathura road located at starting point of Civil Hospital road moving towards East on Civil Hospital road upto Fountain chowk City park, Ballabgarh, thence moving towards South-East on Mohna road upto Edge of India situated at Mohna road Ballabgarh, thence moving towards South-West side upto Bachpan Its Play School situated at road between Aakash Cinema and City Park Mukesh Colony, thence moving towards South-East alongwith Nallah of Mohna road upto Jugnu Auto Centre situated at Pulia of Mahavir colony, thence moving towards South-East side upto the office of Daya Chand Yadav, Ex-Councilor situated at Uncha Gaon, thence moving towards South upto House of Mahender situated at the corner of Subedar Road of Unchgaon, thence moving towards West alongwith Subedar road of Unchgaon upto the shop of Vinod Singla situated at Malerna road, thence moving towards South on Malerna road upto Sarpanch Chowk situated at turning point of Balaji college road, thence moving towards West on Balaji college road upto the Electrical shop of Murari situated at the main road of Subhash Colony, thence moving towards North upto the South-West corner of Kissan Bhawan, thence moving towards West upto the corner of Fudd of Anaj Mandi, thence moving towards North upto the Disposal situated at Anaj Mandi road, thence moving towards West upto the T-junction of Delhi-Mathura road, thence moving towards North on the turn of Delhi-Mathura road upto National Trading shop which is starting point of this Ward.

Ward No. 44 :- Starting point from Hari kishan juice cornor near Gupta Hotel, thence moving towards south East upto Anand Sharma house near Bye pass road, thence moving towards South on bye pass road and thence moving West upto the Railway track upto the T-point under the over bridge, thence moving towards north alongwith Eastern edge of Railway track upto H.No.1306 gali no.13 in Subhash Colony, Ballabgarh, thence moving towards East upto the Asha rani house in front gali no.13, thence moving towards South on main subhash colony road up to Murari Electrical shop, thence moving towards East on Bala Ji College Road upto Sarpanch chowk, thence moving towards North on Malerna Road upto shop of Vinod Singla, thence moving towards East on Marg road upto shop of Mahender, thence moving towards North upto Ex. Councilor Daya chand yadav , thence moving towards North West on Uncha Gaon, firni road upto the jugnu auto center at Mahavir Colony pulia, thence moving towards North East upto Hari kishan Juice cornor on Mohna road which is started point in ward no.44.

Ward No. 45 :- Starting point from bypass road Railway crossing flyover, moving towards East alongwith bypass then turning north upto the starting point of Bridge on Gurgaon & Agra Canal at Ballabgarh Tigaon road, thence moving towards East upto the Eastern edge of Agra Canal, thence moving towards North upto the turning point of sector dividing road between sector 75 & 80, thence moving towards East upto the turning point of sector dividing road between sector 78 & 79, thence moving towards North upto the Chandila chowk, thence moving towards North East on sector dividing road between sector 82 & 83 upto old kheri Bhatola road, thence moving towards North-East on Kheri Bhatola road upto sector dividing road of sector 83 & 84, thence moving towards East on Sector dividing road upto the Vishnu Garden on outer peri pheri road, thence moving towards South upto Tigaon Road opposite Govt. School of Village Faridpur, thence moving towards South-East upto Sant Sahib Satlok Ashram, thence moving towards South on the extended limit of MCF Boundary of villages namely Neemika, Navada, Machhgar, Sotai, Sahupura & Malerna upto road lead to Bye-pass which is starting point of this Ward.

ARUN GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.